



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

PO- 500
KM. 30
Distt- 250
CPB- 220

सं. 11]

No. 11]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 8, 2004/पौष 18, 1925
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 8, 2004/PAUSA 18, 1925

पूरा किया

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2004

सं. 5/2004-सीमाशुल्क

प्रभारी
श्री० वि० एक

सा.का.नि. 18(अ).— केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 27/2003-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003 को, जिसे भारत सरकार के राजपत्र में सा०का०नि० 162(अ) तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाले और नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट माल को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उक्त पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने सीमाशुल्क से जो,-

(क) जहां शुल्क की मानक दर पर उद्ग्रहणीय है वहां उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम और

(ख) जहां शुल्क की अधिमानी दर उद्ग्रहणीय है वहां उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम,

से अधिक है, से छूट देती है।

स्पष्टीकरण— इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए स्तंभ (3) या स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट दर तब तक मूल्यानुसार होगी जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न की जाए।

सारणी

क्रम सं.	अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	मानक दर	अधिमानी दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	0806 20	100 प्रतिशत	90 प्रतिशत
2.	2106 90	150 प्रतिशत	-
3.	2207 10	150 प्रतिशत	-
4.	2208	150 प्रतिशत	-

5.	25 (2504 और 2510 के सिवाय)	20 प्रतिशत	-
6.	2504	20 प्रतिशत	10 प्रतिशत
7.	2620 11 00, 2620 19 00 और 2620 30	20 प्रतिशत	-
8.	2701 11 00, 2701 19, 2705 00 00, 2706, 2707 और 2708	20 प्रतिशत	-
9.	28 (2801 20 00, 2814, और 2845 10 00 के सिवाय)	20 प्रतिशत	-
10.	29 (2901, 2902, 2903 15 00, 2903 21 00, 2917 37 00, 2926 10 00, 2933 71 00, 2936, 2937, 2939 41, 2939 42 00, 2939 43 00, 2939 49 00, 2939 51 00, 2939 59 00 और 2941 के सिवाय)	20 प्रतिशत	-
11.	2917 37 00 और 2933 71 00	20 प्रतिशत	10 प्रतिशत
12.	2936	20 प्रतिशत	14 प्रतिशत
13.	2937, 2939 41, 2939 42 00, 2939 43 00, 2939 49 00, 2939 51 00 और 2939 59 00	20 प्रतिशत	10 प्रतिशत
14.	2941	20 प्रतिशत	14 प्रतिशत
15.	30 (3005 और 3006 के सिवाय)	20 प्रतिशत	10 प्रतिशत
16.	3005, 3006 10, 3006 20 00, 3006 30 00, 3006 40 00, 3006 50 00, 3006 70 00 और 3006 80 00	20 प्रतिशत	-
17.	31 (3102 21 00, 3102 50 00, 3104 30 00, 3105 20 00, 3105 30 00, 3105 40 00, 3105 51 00, 3105 59 00, 3105 60 00 और 3105 90 के सिवाय)	20 प्रतिशत	-
18.	32 (3201 के सिवाय)	20 प्रतिशत	-
19.	33 (3302 10 के सिवाय)	20 प्रतिशत	-
20.	3302 10	150 प्रतिशत	-
21.	34 (3402 11, 3402 12 00, 3402 13 00 और 3402 19 00 के सिवाय)	20 प्रतिशत	-
22.	3402 11, 3402 12 00, 3402 13 00 और 3402 19 00	20 प्रतिशत	10 प्रतिशत
23.	35	20 प्रतिशत	-
24.	36	20 प्रतिशत	-
25.	37 (3701 20 00 और 3702 20 00 के सिवाय)	20 प्रतिशत	-
26.	38 (3801 10 00, 3802 10 00, 3812 10 00, 3815 11 00, 3815 12, 3818 और 3823 70 के सिवाय)	20 प्रतिशत	-

27.	3801 10 00, 3802 10 00, 3812 10 00, 3815 11 00 और 3815 12	20 प्रतिशत	10 प्रतिशत
28.	39	20 प्रतिशत	-
29.	40 (4001 10 और 4011 30 00 के सिवाय)	20 प्रतिशत	-
30.	41 (4101, 4102 और 4103 के सिवाय)	20 प्रतिशत	-
31.	42	20 प्रतिशत	-
32.	4303 और 4304	20 प्रतिशत	-
33.	44 (4401, 4402 और 4403 के सिवाय)	20 प्रतिशत	-
34.	45	20 प्रतिशत	-
35.	46	20 प्रतिशत	-
36.	48(4801 के सिवाय)	20 प्रतिशत	-
37.	49 (4902, 4904 00 00 और 4905 के सिवाय)	20 प्रतिशत	-
38.	50 (5001 00 00, 5002 और 5003 के सिवाय)	20 प्रतिशत	-
39.	5109 और 5110	20 प्रतिशत	-
40.	5111 11	20 प्रतिशत या 135 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
41.	5111 19	20 प्रतिशत या 150 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
42.	5111 20	20 प्रतिशत या 80 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
43.	5111 30	20 प्रतिशत या 75 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
44.	5111 90	20 प्रतिशत या 90 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
45.	5112 11	20 प्रतिशत या 125 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-

46.	5112 19	20 प्रतिशत या 155 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
47.	5112 20	20 प्रतिशत या 85 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
48.	5112 30	20 प्रतिशत या 110 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
49.	5112 90	20 प्रतिशत या 135 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
50.	5113 00	20 प्रतिशत या 60 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
51.	5207, 5208 11, 5208 12, 5208 13, 5208 19, 5208 21, 5208 22, 5208 23, 5208 29, 5208 31, 5208 32, और 5208 33	20 प्रतिशत	-
52.	5208 39	20 प्रतिशत या 150 रु० प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो	-
53.	5208 41	20 प्रतिशत या 9 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
54.	5208 42	20 प्रतिशत या 37 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
55.	5208 43	20 प्रतिशत	-
56.	5208 49	20 प्रतिशत या 200 रु० प्रति किलोग्राम इनमें से जो भी अधिक हो	-
57.	5208 51	20 प्रतिशत या 27 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-

58.	5208 52	20 प्रतिशत या 23 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
59.	5208 53	20 प्रतिशत या 35 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
60.	5208 59	20 प्रतिशत या 50 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
61.	5209 11, 5209 12, 5209 19 00, 5209 21, 5209 22 और 5209 29	20 प्रतिशत	-
62.	5209 31, 5209 32 और 5209 39	20 प्रतिशत या 150 रु० प्रति किलोग्राम इनमें से जो भी अधिक हो	-
63.	5209 41	20 प्रतिशत या 32 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
64.	5209 42 00	20 प्रतिशत या 25 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
65.	5209 43	20 प्रतिशत या 30 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
66.	5209 49	20 प्रतिशत या 150 रु० प्रति किलोग्राम इनमें से जो भी अधिक हो	-
67.	5209 51 और 5209 52	20 प्रतिशत या 30 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
68.	5209 59	20 प्रतिशत या 38 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
69.	5210 11, 5210 12, 5210 19 00, 5210 21, 5210 22, 5210 29, 5210 31 और 5210 32	20 प्रतिशत	-

70.	5210 39	20 प्रतिशत या 150 रु० प्रति किलोग्राम इनमें से जो भी अधिक हो	-
71.	5210 41	20 प्रतिशत या 15 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
72.	5210 42	20 प्रतिशत या 25 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
73.	5210 49	20 प्रतिशत या 185 रु० प्रति किलोग्राम इनमें से जो भी अधिक हो	-
74.	5210 51, 5210 52 और 5210 59	20 प्रतिशत या 15 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
75.	5211 11, 5211 12, 5211 19 00, 5211 21, 5211 22 और 5211 29	20 प्रतिशत	-
76.	5211 31, 5211 32 और 5211 39	20 प्रतिशत या 150 रु० प्रति किलोग्राम इनमें से जो भी अधिक हो	-
77.	5211 41	20 प्रतिशत या 44 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
78.	5211 42 00	20 प्रतिशत या 18 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
79.	5211 43	20 प्रतिशत या 40 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
80.	5211 49	20 प्रतिशत या 150 रु० प्रति किलोग्राम इनमें से जो भी अधिक हो	-
81.	5211 51, 5211 52 और 5211 59	20 प्रतिशत या 18 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
82.	5212 11 00, 5212 12 00, 5212 13 00 और 5212 14 00	20 प्रतिशत	-

83.	5212 15 00	20 प्रतिशत या 165 रु० प्रति किलोग्राम इनमें से जो भी अधिक हो	-
84.	5212 21 00, 5212 22 00 और 5212 23 00	20 प्रतिशत	-
85.	5212 24 00	20 प्रतिशत या 20 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
86.	5212 25 00	20 प्रतिशत या 165 रु० प्रति किलोग्राम इनमें से जो भी अधिक हो	-
87.	53 (5301 और 5302 के सिवाय)	20 प्रतिशत	-
88.	5407 10	20 प्रतिशत या 115 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
89.	5407 20, 5407 30	20 प्रतिशत	-
90.	5407 41	20 प्रतिशत या 30 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
91.	5407 42	20 प्रतिशत या 60 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
92.	5407 43 00	20 प्रतिशत या 67 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
93.	5407 44	20 प्रतिशत या 58 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
94.	5407 51	20 प्रतिशत या 11 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
95.	5407 52	20 प्रतिशत या 38 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
96.	5407 53 00	20 प्रतिशत या 50 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-

97.	5407 54	20 प्रतिशत या 20 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
98.	5407 61	20 प्रतिशत या 150 रु० प्रति किलोग्राम इनमें से जो भी अधिक हो	-
99.	5407 69 00	20 प्रतिशत या 60 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
100.	5407 71	20 प्रतिशत या 10 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
101.	5407 72 00	20 प्रतिशत या 24 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
102.	5407 73 00	20 प्रतिशत या 60 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
103.	5407 74 00	20 प्रतिशत या 38 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
104.	5407 81	20 प्रतिशत या 10 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
105.	5407 82	20 प्रतिशत या 42 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
106.	5407 83 00	20 प्रतिशत या 67 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
107.	5407 84	20 प्रतिशत या 38 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-

108.	5407 91	20 प्रतिशत या 15 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
109.	5407 92 00	20 प्रतिशत या 67 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
110.	5407 93 00	20 प्रतिशत या 45 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
111.	5407 94 00	20 प्रतिशत या 67 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
112.	5408 10 00 और 5408 21	20 प्रतिशत	-
113.	5408 22	20 प्रतिशत या 45 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
114.	5408 23 00	20 प्रतिशत या 47 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
115.	5408 24	20 प्रतिशत या 87 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
116.	5408 31	20 प्रतिशत या 25 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
117.	5408 32	20 प्रतिशत या 44 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
118.	5408 33 00	20 प्रतिशत या 10 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
119.	5408 34	20 प्रतिशत या 11 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-

120.	5505 और 5512 11	20 प्रतिशत	-
121.	5512 19	20 प्रतिशत या 42 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
122.	5512 21	20 प्रतिशत	-
123.	5512 29	20 प्रतिशत या 47 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
124.	5512 91	20 प्रतिशत	-
125.	5512 99	20 प्रतिशत या 65 रु० प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो	-
126.	5513 11, 5513 12, 5513 13 और 5513 19	20 प्रतिशत	-
127.	5513 21 00 और 5513 22 00	20 प्रतिशत या 150 रु० प्रति किलोग्राम इनमें से जो भी अधिक हो	-
128.	5513 23 00	20 प्रतिशत या 125 रु० प्रति किलोग्राम या 25 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिकतम हो	-
129.	5513 29 00	20 प्रतिशत या 185 रु० प्रति किलोग्राम इनमें से जो भी अधिक हो	-
130.	5513 31 00	20 प्रतिशत या 21 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
131.	5513 32 00	20 प्रतिशत या 170 रु० प्रति किलोग्राम इनमें से जो भी अधिक हो	-
132.	5513 33 00	20 प्रतिशत या 22 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-

133.	5513 39 00	20 प्रतिशत या 125 रु० प्रति किलोग्राम या 30 प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
134.	5513 41 00	20 प्रतिशत या 25 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
135.	5513 42 00	20 प्रतिशत या 12 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
136.	5513 43 00	20 प्रतिशत या 20 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
137.	5513 49 00	20 प्रतिशत या 185 रु० प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो	-
138.	5514 11, 5514 12, 5514 13 और 5514 19	20 प्रतिशत	-
139.	5514 21 00	20 प्रतिशत या 100 रु० प्रति किलोग्राम या 30 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिकतम हो	-
140.	5514 22 00	20 प्रतिशत या 140 रु० प्रति किलोग्राम इनमें से जो भी अधिक हो	-
141.	5514 23 00	20 प्रतिशत या 160 रु० प्रति किलोग्राम इनमें से जो भी अधिक हो	-
142.	5514 29 00	20 प्रतिशत या 170 रु० प्रति किलोग्राम इनमें से जो भी अधिक हो	-
143.	5514 31 00	20 प्रतिशत या 64 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-

144.	5514 32 00	20 प्रतिशत या 43 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
145.	5514 33 00	20 प्रतिशत या 180 रु० प्रति किलोग्राम इनमें से जो भी अधिक हो	-
146.	5514 39 00	20 प्रतिशत या 31 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
147.	5514 41 00	20 प्रतिशत या 26 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
148.	5514 42 00	20 प्रतिशत या 140 रु० प्रति किलोग्राम इनमें से जो भी अधिक हो	-
149.	5514 43 00	20 प्रतिशत या 31 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
150.	5514 49 00	20 प्रतिशत या 160 रु० प्रति किलोग्राम इनमें से जो भी अधिक हो	-
151.	5515 11	20 प्रतिशत या 40 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
152.	5515 12	20 प्रतिशत या 95 रु० प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी अधिक हो	-
153.	5515 13	20 प्रतिशत या 75 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
154.	5515 19	20 प्रतिशत या 45 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-

155.	5515 21	20 प्रतिशत या 79 प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
156.	5515 22	20 प्रतिशत या 140 रु० प्रति किलोग्राम इनमें से जो भी अधिक हो	-
157.	5515 29	20 प्रतिशत या 30 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
158.	5515 91	20 प्रतिशत या 57 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
159.	5515 92	20 प्रतिशत या 55 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
160.	5515 99	20 प्रतिशत या 35 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
161.	5516 11	20 प्रतिशत	-
162.	5516 12 00	20 प्रतिशत या 35 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
163.	5516 13 00	20 प्रतिशत या 40 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
164.	5516 14	20 प्रतिशत या 12 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
165.	5516 21	20 प्रतिशत	-
166.	5516 22 00 और 5516 23 00	20 प्रतिशत या 150 रु० प्रति किलोग्राम इनमें से जो भी अधिक हो	-
167.	5516 24 00	20 प्रतिशत या 12 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-

168.	5516 31, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 41 और 5516 42 00	20 प्रतिशत	-
169.	5516 43 00 और 5516 44 00	20 प्रतिशत या 12 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
170.	5516 91 और 5516 92 00	20 प्रतिशत	-
171.	5516 93 00	20 प्रतिशत या 21 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हों	-
172.	5516 94 00	20 प्रतिशत या 40 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
173.	5601, 5602, 5203, 5608 और 5609	20 प्रतिशत	-
174.	5701, 5702 10 00, 5702 20 और 5702 31	20 प्रतिशत	-
175.	5702 32	20 प्रतिशत या 105 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
176.	5702 39 और 5702 41 00	20 प्रतिशत	-
177.	5702 42	20 प्रतिशत या 80 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
178.	5702 49 और 5702 51	20 प्रतिशत	-
179.	5702 52	20 प्रतिशत या 105 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
180.	5702 59 और 5702 91	20 प्रतिशत	-
181.	5702 92	20 प्रतिशत या 110 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक	-
182.	5702 99 और 5703 10	20 प्रतिशत	-
183.	5703 20	20 प्रतिशत या 70 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-

184.	5703 30	20 प्रतिशत या 55 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
185.	5703 90 और 5704 10	20 प्रतिशत	-
186.	5704 90	20 प्रतिशत या 35 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
187.	5705	20 प्रतिशत	-
188.	5801 10 00	20 प्रतिशत या 210 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
189.	5801 21 00	20 प्रतिशत या 80 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
190.	5801 22	20 प्रतिशत या 75 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
191.	5801 23 00	20 प्रतिशत या 80 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
192.	5801 24 00	20 प्रतिशत या 135 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
193.	5801 25 00	20 प्रतिशत या 120 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
194.	5801 26 00	20 प्रतिशत या 180 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
195.	5801 31 00	20 प्रतिशत या 75 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-

196.	5801 32 00	20 प्रतिशत या 180 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
197.	5801 33 00	20 प्रतिशत या 150 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
198.	5801 34	20 प्रतिशत या 140 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
199.	5801 35 00	20 प्रतिशत या 68 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
200.	5801 36	20 प्रतिशत या 130 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
201.	5801 90	20 प्रतिशत या 35 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
202.	5802 11 00	20 प्रतिशत	-
203.	5802 19	20 प्रतिशत या 60 रु० प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी अधिक हो	-
204.	5802 20 00	20 प्रतिशत	-
205.	5802 30 00	20 प्रतिशत या 150 रु० प्रति किलोग्राम इनमें से जो भी अधिक हो	-
206.	5803	20 प्रतिशत	-
207.	5804	20 प्रतिशत या 200 रु० प्रति किलोग्राम इनमें से जो भी अधिक हो	-
208.	5805, 5806, 5807, 5808 और 5809	20 प्रतिशत	-

209.	5810 10 00	20 प्रतिशत या 200 रु० प्रति किलोग्राम इनमें से जो भी अधिक हो	-
210.	5810 91 00, 5810 92, 5810 99 00 और 5811	20 प्रतिशत	-
211.	59	20 प्रतिशत	-
212.	60 (6001 92 00 के सिवाय)	20 प्रतिशत	-
213.	6001 92 00	20 प्रतिशत या 100 रु० प्रति किलोग्राम इनमें से जो भी अधिक हो	-
214.	6101 10	20 प्रतिशत या 700 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
215.	6101 20 00	20 प्रतिशत या 540 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
216.	6101 30	20 प्रतिशत या 530 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
217.		20 प्रतिशत	-
218.	6102 10 00	20 प्रतिशत या 595 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
219.	6102 20 00	20 प्रतिशत या 425 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
220.	6102 30	20 प्रतिशत या 475 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
221.	6102 90, 6103, 6104 11 00, 6104 12 00 और 6104 13 00	20 प्रतिशत	-
222.	6104 19	20 प्रतिशत या 460 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
223.	6104 21 00, 6104 22 00, 6104 23 00, 6104 29, 6104 31 00, 6104 32 00, 6104 33 00 और 6104 39	20 प्रतिशत	-
224.	6104 41 00	20 प्रतिशत या 255 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
225.	6104 42 00	20 प्रतिशत	-

226.	6104 43 00 और 6104 44 00	20 प्रतिशत या 255 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
227.	6104 49	20 प्रतिशत या 220 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
228.	6104 51 00, 6104 52 00, 6104 53 00 और 6104 59	20 प्रतिशत या 110 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
229.	6104 61 00	20 प्रतिशत	-
230.	6104 62 00 और 6104 63 00	20 प्रतिशत या 98 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
231.	6104 69	20 प्रतिशत	-
232.	6105 10 और 6105 20	20 प्रतिशत या 83 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
233.	6105 90	20 प्रतिशत या 90 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
234.	6106 10 00	20 प्रतिशत या 90 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
235.	6106 20	20 प्रतिशत या 25 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
236.	6106 90	20 प्रतिशत या 135 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
237.	6107 11 00	20 प्रतिशत या 24 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
238.	6107 12	20 प्रतिशत या 30 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
239.	6107 19, 6107 21 00, 6107 22, 6107 29, 6107 91, 6107 92, 6107 99, 6108 11 और 6108 19	20 प्रतिशत	-
240.	6108 21 00 और 6108 22	20 प्रतिशत या 25 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
241.	6108 29, 6108 31 00, 6108 32 और 6108 39	20 प्रतिशत	-

242.	6108 91 00	20 प्रतिशत या 65 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
243.	6108 92	20 प्रतिशत या 60 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
244.	6108 99	20 प्रतिशत	-
245.	6109 10 00	20 प्रतिशत या 45 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
246.	6109 90	20 प्रतिशत या 50 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
247.	6110 11, 6110 12 00 और 6110 19 00	20 प्रतिशत या 275 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
248.	6110 20 00	20 प्रतिशत या 85 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
249.	6110 30	20 प्रतिशत या 110 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
250.	6110 90 00	20 प्रतिशत या 105 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
251.	6111, 6112, 6113 00 00, 6114, 6115, 6116 और 6117	20 प्रतिशत	-
252.	6201 11 00 और 6201 12	20 प्रतिशत या 385 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
253.	6201 13	20 प्रतिशत या 320 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
254.	6201 19	20 प्रतिशत	-
255.	6201 91 00	20 प्रतिशत या 220 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
256.	6201 92 00	20 प्रतिशत या 210 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-

257.	6201 93 00	20 प्रतिशत या 180 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
258.	6201 99	20 प्रतिशत	-
259.	6202 11	20 प्रतिशत या 385 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
260.	6202 12 00	20 प्रतिशत या 210 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
261.	6202 13 00	20 प्रतिशत या 385 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
262.	6202 19	20 प्रतिशत	-
263.	6202 91	20 प्रतिशत या 220 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
264.	6202 92	20 प्रतिशत या 160 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
265.	6202 93	20 प्रतिशत या 220 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
266.	6202 99	20 प्रतिशत	-
267.	6203 11 00	20 प्रतिशत या 1100 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
268.	6203 12 00	20 प्रतिशत या 720 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
269.	6203 19	20 प्रतिशत या 1100 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
270.	6203 21 00, 6203 22 00, 6203 23 00 और 6203 29 00	20 प्रतिशत या 145 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
271.	6203 31 00	20 प्रतिशत या 815 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-

272.	6203 32 00	20 प्रतिशत या 440 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
273.	6203 33 00	20 प्रतिशत या 320 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
274.	6203 39	20 प्रतिशत या 755 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
275.	6203 41 00	20 प्रतिशत या 285 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
276.	6203 42 00	20 प्रतिशत या 135 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
277.	6203 43 00 और 6203 49	20 प्रतिशत या 110 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
278.	6204 11 00	20 प्रतिशत या 550 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
279.	6204 12 00	20 प्रतिशत	-
280.	6204 13 00	20 प्रतिशत या 550 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
281.	6204 19	20 प्रतिशत या 500 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
282.	6204 21 00, 6204 22, 6204 23 00 और 6204 29	20 प्रतिशत	-
283.	6204 31 00	20 प्रतिशत या 370 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
284.	6204 32 00	20 प्रतिशत या 650 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
285.	6204 33 00	20 प्रतिशत या 390 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
286.	6204 39	20 प्रतिशत या 350 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-

287.	6204 41	20 प्रतिशत या 145 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
288.	6204 42	20 प्रतिशत या 116 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
289.	6204 43, 6204 44 00 और 6204 49	20 प्रतिशत या 145 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
290.	6204 51 00	20 प्रतिशत या 485 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
291.	6204 52 00, 6204 53 00 और 6204 59	20 प्रतिशत	-
292.	6204 61	20 प्रतिशत या 285 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
293.	6204 62 00	20 प्रतिशत या 135 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
294.	6204 63 00	20 प्रतिशत	-
295.	6204 69	20 प्रतिशत या 135 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
296.	6205 10 00	20 प्रतिशत या 200 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
297.	6205 20 00	20 प्रतिशत या 85 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
298.	6205 30 00	20 प्रतिशत या 120 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
299.	6205 90	20 प्रतिशत या 95 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
300.	6206 10	20 प्रतिशत	-
301.	6206 20 00	20 प्रतिशत या 135 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-

302.	6206 30 00	20 प्रतिशत या 95 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
303.	6206 40 00	20 प्रतिशत या 120 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
304.	6206 90 00	20 प्रतिशत	-
305.	6207 11 00	20 प्रतिशत या 28 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
306.	6207 19	20 प्रतिशत या 30 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
307.	6207 21 10, 6207 21 90, 6207 22 00, 6207 29 00, 6207 91 और 6207 92 00	20 प्रतिशत	-
308.	6207 99	20 प्रतिशत या 70 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
309.	6208 11 00	20 प्रतिशत या 80 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
310.	6208 19	20 प्रतिशत या 60 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
311.	6208 21 00, 6208 22 00 और 6208 29	20 प्रतिशत	-
312.	6208 91	20 प्रतिशत या 95 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
313.	6208 92	20 प्रतिशत या 65 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
314.	6208 99, 6209 और 6210 10 00	20 प्रतिशत	-
315.	6210 20	20 प्रतिशत या 365 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
316.	6210 30	20 प्रतिशत या 305 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-

317.	6210 40 और 6210 50 00	20 प्रतिशत या 65 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
318.	6211 11 00, 6211 12 00, 6211 20 00 और 6211 31 00	20 प्रतिशत	-
319.	6211 32 00 और 6211 33 00	20 प्रतिशत या 135 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
320.	6211 39 00 और 6211 41 00	20 प्रतिशत	-
321.	6211 42 और 6211 43 00	20 प्रतिशत या 135 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
322.	6211 49 00	20 प्रतिशत	-
323.	6212	20 प्रतिशत या 30 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
324.	6213	20 प्रतिशत	-
325.	6214 10	20 प्रतिशत या 390 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
326.	6214 20	20 प्रतिशत या 180 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
327.	6214 30 00 और 6214 40 00	20 प्रतिशत	-
328.	6214 90	20 प्रतिशत या 75 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
329.	6215	20 प्रतिशत या 55 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
330.	6216 और 6217	20 प्रतिशत	-
331.	63 (6301 20 00, 6302 21 00, 6302 31 00 के सिवाय)	20 प्रतिशत	-
332.	6301 20 00	20 प्रतिशत या 275 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
333.	6302 21 00	20 प्रतिशत या 108 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-

334.	6302 31 00	20 प्रतिशत या 96 रु० प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो	-
335.	64	20 प्रतिशत	-
336.	65	20 प्रतिशत	-
337.	66	20 प्रतिशत	-
338.	67	20 प्रतिशत	-
339.	68	20 प्रतिशत	-
340.	69	20 प्रतिशत	-
341.	70	20 प्रतिशत	-
342.	71	20 प्रतिशत	-
343.	7201, 7202	20 प्रतिशत	-
344.	73	20 प्रतिशत	-
345.	74	20 प्रतिशत	-
346.	75	10 प्रतिशत	-
347.	7615	20 प्रतिशत	-
348.	78	20 प्रतिशत	-
349.	79	20 प्रतिशत	-
350.	81	20 प्रतिशत	-
351.	82	20 प्रतिशत	-
352.	83	20 प्रतिशत	-
353.	84 (8407 21 00, 8456 91 00, 8469 11 00, 8470, 8471, 8473 21 00, 8473 29 00, 8473 30 और 8473 50 00 के सिवाय)	20 प्रतिशत	-
354.	8469 11 00, 8470 और 8471 (8471 70 के सिवाय)	10 प्रतिशत	-
355.	8473 21 00, 8473 29 00	कुछ नहीं	-
356.	8473 30	10 प्रतिशत	-
357.	8473 50	5 प्रतिशत	-
358.	85 (8517, 8520 20 00, 8523 11, 8523 12, 8523 13, 8523 20, 8523 90, 8524 31, 8524 40, 8524 91, 8525 20, 8531 20 00, 8532, 8533, 8534 00 00, 8540 40 00, 8541, 8542, 8543 11 00, 8543 81 00, 8544 70 के सिवाय)	20 प्रतिशत	-
359.	8517 80(8517 80 30), 8517 90, 8520 20 00, 8532 10 00, 8532 22 00, 8532 23 00, 8532 25 00, 8532 29, 8532 30 00, 8533 10 00, 8533 21, 8533 29, 8533 31, 8533 39, 8533 40, 8534 00 00, 8541 10 00, 8541 21 00, 8541 29 00, 8541 30, 8541 40, 8541 50 00, 8541 60 00, 8543 81 00	10 प्रतिशत	-

360.	8523 11, 8523 12, 8523 13, 8523 20, 8523 90, 8524 31, 8524 40 और 8524 91	5 प्रतिशत	-
361.	86	20 प्रतिशत	-
362.	87(8703, 8710 00 00 और 8711 के सिवाय)	20 प्रतिशत	-
363.	88 (8802 20 00, 8802 30 00, 8802 40 00, 8803 10 00, 8803 20 00, 8803 30 00 के सिवाय)	20 प्रतिशत	-
364.	89(8908 00 00 के सिवाय)	20 प्रतिशत	-
365.	90 (9009 11 00, 9009 21 00, 9010 41 00, 9010 42 00, 9010 49 00, 9026, 9027 20 00, 9027 30, 9027 50, 9027 80, 9030 40 00, 9030 82 00 और 9031 41 00 के सिवाय)	20 प्रतिशत	-
366.	9026 10	10 प्रतिशत	-
367.	9026 20 00 और 9026 80	5 प्रतिशत	-
368.	9026 90 00	कुछ नहीं	-
369.	9027 20 00, 9027 30, 9027 50 और 9027 80	5 प्रतिशत	-
370.	9030 40 00	10 प्रतिशत	-
371.	91	20 प्रतिशत	-
372.	92	20 प्रतिशत	-
373.	93	20 प्रतिशत	-
374.	94	20 प्रतिशत	-
375.	95	20 प्रतिशत	-
376.	96	20 प्रतिशत	-
377.	97(9704 के सिवाय)	20 प्रतिशत	-
378.	98 (9803 00 00 के सिवाय)	20 प्रतिशत	-

2. यह अधिसूचना 9 जनवरी, 2004 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 349/1/2004-टीआरयू]

जी. एस. कार्की, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2004

No. 5/2004-CUSTOMS

G.S.R. 18(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance and Company Affairs (Department of Revenue) No. 27/2003-Customs dated the 1st March, 2003, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II section 3, sub-section (i), dated the 1st March, 2003 [G.S.R. 162, dated the 1st March, 2003], the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods falling under the Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), specified in column (2) of the Table below, when imported into India, from so much of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule as is in excess of—

- (a) the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, where the standard rate of duty is leviable; and
- (b) the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, where the preferential rate of duty is leviable.

Explanation.— For the purposes of this notification, the rate specified in column (3) or column(4) is the *ad valorem* rate unless otherwise specified.

TABLE

S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item	Standard rate	Preferential rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	0806 20	100%	90%
2.	2106 90	150%	-
3.	2207 10	150%	-
4.	2208	150%	-
5.	25 (except 2504 and 2510)	20%	-
6.	2504	20%	10%
7.	2620 11 00, 2620 19 00 and 2620 30	20%	-
8.	2701 11 00, 2701 19, 2705 00 00, 2706, 2707 and 2708	20%	-
9.	28 (except 2801 20 00, 2814, and 2845 10 00)	20%	-
10.	29 (except 2901, 2902, 2903 15 00, 2903 21 00, 2917 37 00, 2926 10 00, 2933 71 00, 2936, 2937, 2939 41, 2939 42 00, 2939 43 00, 2939 49 00, 2939 51 00, 2939 59 00 and 2941)	20%	-
11.	2917 37 00 and 2933 71 00	20%	10%

12.	2936	20%	14%
13.	2937, 2939 41, 2939 42 00, 2939 43 00, 2939 49 00, 2939 51 00 and 2939 59 00	20%	10%
14.	2941	20%	14%
15.	30 (except 3005 and 3006)	20%	10%
16.	3005, 3006 10, 3006 20 00, 3006 30 00, 3006 40 00, 3006 50 00, 3006 70 00 and 3006 80 00	20%	-
17.	31 (except 3102 21 00, 3102 50 00, 3104 30 00, 3105 20 00, 3105 30 00, 3105 40 00, 3105 51 00, 3105 59 00, 3105 60 00 and 3105 90)	20%	-
18.	32 (except 3201)	20%	-
19.	33 (except 3302 10)	20%	-
20.	3302 10	150%	-
21.	34 (except 3402 11, 3402 12 00, 3402 13 00 and 3402 19 00)	20%	-
22.	3402 11, 3402 12 00, 3402 13 00 and 3402 19 00	20%	10%
23.	35	20%	-
24.	36	20%	-
25.	37 (except 3701 20 00 and 3702 20 00)	20%	-
26.	38 (except 3801 10 00, 3802 10 00, 3812 10 00, 3815 11 00, 3815 12, 3818 and 3823 70)	20%	-
27.	3801 10 00, 3802 10 00, 3812 10 00, 3815 11 00 and 3815 12	20%	10%
28.	39	20%	-
29.	40 (except 4001 10 and 4011 30 00)	20%	-
30.	41 (except 4101, 4102 and 4103)	20%	-
31.	42	20%	-
32.	4303 and 4304	20%	-
33.	44 (except 4401, 4402 and 4403)	20%	-
34.	45	20%	-
35.	46	20%	-
36.	48(except 4801)	20%	-
37.	49 (except 4902, 4904 00 00 and 4905)	20%	-
38.	50 (except 5001 00 00, 5002 and 5003)	20%	-

39.	5109 and 5110	20%	-
40.	5111 11	20% or Rs 135 per sq. metre, whichever is higher	-
41.	5111 19	20% or Rs 150 per sq. metre, whichever is higher	-
42.	5111 20	20% or Rs 80 per sq. metre, whichever is higher	-
43.	5111 30	20% or Rs. 75 per sq. metre, whichever is higher	-
44.	5111 90	20% or Rs. 90 per sq. metre, whichever is higher	-
45.	5112 11	20% or Rs. 125 per sq. metre, whichever is higher	-
46.	5112 19	20% or Rs. 155 per sq. metre, whichever is higher	-
47.	5112 20	20% or Rs. 85 per sq. metre, whichever is higher	-
48.	5112 30	20% or Rs. 110 per sq. metre, whichever is higher	-
49.	5112 90	20% or Rs. 135 per sq. metre, whichever is higher	-
50.	5113 00	20% or Rs. 60 per sq. metre, whichever is higher	-
51.	5207, 5208 11, 5208 12, 5208 13, 5208 19, 5208 21, 5208 22, 5208 23, 5208 29, 5208 31, 5208 32, and 5208 33	20%	-
52.	5208 39	20% or Rs. 150 per kg., whichever is higher	-
53.	5208 41	20% or Rs. 9 per sq. metre, whichever is higher	-
54.	5208 42	20% or Rs. 37 per sq. metre, whichever is higher	-

55.	5208 43	20%	-
56.	5208 49	20% or Rs. 200 per kg., whichever is higher	-
57.	5208 51	20% or Rs. 27 per sq. metre, whichever is higher	-
58.	5208 52	20% or Rs. 23 per sq. metre, whichever is higher	-
59.	5208 53	20% or Rs. 35 per sq. metre, whichever is higher	-
60.	5208 59	20% or Rs. 50 per sq. metre, whichever is higher	-
61.	5209 11, 5209 12, 5209 19 00, 5209 21, 5209 22 and 5209 29	20%	-
62.	5209 31, 5209 32 and 5209 39	20% or Rs. 150 per kg., whichever is higher	-
63.	5209 41	20% or Rs. 32 per sq. metre, whichever is higher	-
64.	5209 42 00	20% or Rs. 25 per sq. metre, whichever is higher	-
65.	5209 43	20% or Rs. 30 per sq. metre, whichever is higher	-
66.	5209 49	20% or Rs. 150 per kg., whichever is higher	-
67.	5209 51 and 5209 52	20% or Rs. 30 per sq. metre, whichever is higher	-
68.	5209 59	20% or Rs. 38 per sq. metre, whichever is higher	-
69.	5210 11, 5210 12, 5210 19 00, 5210 21, 5210 22, 5210 29, 5210 31 and 5210 32	20%	-

70.	5210 39	20% or Rs. 150 per kg., whichever is higher	-
71.	5210 41	20% or Rs. 15 per sq. metre, whichever is higher	-
72.	5210 42	20% or Rs. 25 per sq. metre, whichever is higher	-
73.	5210 49	20% or Rs. 185 per kg., whichever is higher	-
74.	5210 51, 5210 52 and 5210 59	20% or Rs. 15 per sq. metre, whichever is higher	-
75.	5211 11, 5211 12, 5211 19 00, 5211 21, 5211 22 and 5211 29	20%	-
76.	5211 31, 5211 32 and 5211 39	20% or Rs. 150 per kg., whichever is higher	-
77.	5211 41	20% or Rs. 44 per sq. metre, whichever is higher	-
78.	5211 42 00	20% or Rs. 18 per sq. metre, whichever is higher	-
79.	5211 43	20% or Rs. 40 per sq. metre, whichever is higher	-
80.	5211 49	20% or Rs. 150 per kg., whichever is higher	-
81.	5211 51, 5211 52 and 5211 59	20% or Rs. 18 per sq. metre, whichever is higher	-
82.	5212 11 00, 5212 12 00, 5212 13 00 and 5212 14 00	20%	-
83.	5212 15 00	20% or Rs. 165 per kg., whichever is higher	-
84.	5212 21 00, 5212 22 00 and 5212 23 00	20%	-
85.	5212 24 00	20% or Rs. 20 per sq. metre, whichever is higher	-
86.	5212 25 00	20% or Rs. 165 per kg., whichever is higher	-

87.	53 (except 5301 and 5302)	20%	-
88.	5407 10	20% or Rs. 115 per kg., whichever is higher	-
89.	5407 20, 5407 30	20%	-
90.	5407 41	20% or Rs. 30 per sq. metre, whichever is higher	-
91.	5407 42	20% or Rs. 60 per sq. metre, whichever is higher	-
92.	5407 43 00	20% or Rs. 67 per sq. metre, whichever is higher	-
93.	5407 44	20% or Rs. 58 per sq. metre, whichever is higher	-
94.	5407 51	20% or Rs. 11 per sq. metre, whichever is higher	-
95.	5407 52	20% or Rs. 38 per sq. metre, whichever is higher	-
96.	5407 53 00	20% or Rs. 50 per sq. metre, whichever is higher	-
97.	5407 54	20% or Rs. 20 per sq. metre, whichever is higher	-
98.	5407 61	20% or Rs. 150 per kg. whichever is higher	-
99.	5407 69 00	20% or Rs. 60 per sq. metre, whichever is higher	-
100.	5407 71	20% or Rs. 10 per sq. metre, whichever is higher	-
101.	5407 72 00	20% or Rs. 24 per sq. metre, whichever is higher	-

102. 5407 73 00	20% or Rs. 60 per sq. metre, whichever is higher	-
103. 5407 74 00	20% or Rs. 38 per sq. metre, whichever is higher	-
104. 5407 81	20% or Rs. 10 per sq. metre, whichever is higher	-
105. 5407 82	20% or Rs. 42 per sq. metre, whichever is higher	-
106. 5407 83 00	20% or Rs. 67 per sq. metre, whichever is higher	-
107. 5407 84	20% or Rs. 38 per sq. metre, whichever is higher	-
108. 5407 91	20% or Rs. 15 per sq. metre, whichever is higher	-
109. 5407 92 00	20% or Rs. 67 per sq. metre, whichever is higher	-
110. 5407 93 00	20% or Rs. 45 per sq. metre, whichever is higher	-
111. 5407 94 00	20% or Rs. 67 per sq. metre, whichever is higher	-
112. 5408 10 00 and 5408 21	20%	-
113. 5408 22	20% or Rs. 45 per sq. metre, whichever is higher	-
114. 5408 23 00	20% or Rs. 47 per sq. metre, whichever is higher	-
115. 5408 24	20% or Rs. 87 per sq. metre, whichever is higher	-
116. 5408 31	20% or Rs. 25 per sq. metre, whichever is higher	-

117. 5408 32	20% or Rs. 44 per sq. metre, whichever is higher	-
118. 5408 33 00	20% or Rs. 10 per sq. metre, whichever is higher	-
119. 5408 34	20% or Rs. 11 per sq. metre, whichever is higher	-
120. 5505 and 5512 11	20%	-
121. 5512 19	20% or Rs. 42 per sq. metre, whichever is higher	-
122. 5512 21	20%	-
123. 5512 29	20% or Rs. 47 per sq. metre, whichever is higher	-
124. 5512 91	20%	-
125. 5512 99	20% or Rs. 65 per kg., whichever is higher	-
126. 5513 11, 5513 12, 5513 13 and 5513 19	20%	-
127. 5513 21 00 and 5513 22 00	20% or Rs. 150 per sq. metre whichever is higher	-
128. 5513 23 00	20% or Rs. 125 per kg. or Rs 25 per sq. metre, whichever is highest	-
129. 5513 29 00	20% or Rs. 185 per kg., whichever is higher	-
130. 5513 31 00	20% or Rs. 21 per sq. metre, whichever is higher	-
131. 5513 32 00	20% or Rs. 170 per kg., whichever is higher	-
132. 5513 33 00	20% or Rs. 22 per sq. metre, whichever is higher	-
133. 5513 39 00	20% or Rs 125 per kg. or Rs. 30 per sq. metre, whichever is highest	-

134. 5513 41 00	20% or Rs. 25 per sq. metre, whichever is higher	-
135. 5513 42 00	20% or Rs. 12 per sq. metre, whichever is higher	-
136. 5513 43 00	20% or Rs. 20 per sq. metre, whichever is higher	-
137. 5513 49 00	20% or Rs. 185 per kg., whichever is higher	-
138. 5514 11, 5514 12, 5514 13 and 5514 19	20%	-
139. 5514 21 00	20% or Rs 100 per kg. or Rs. 30 per sq. metre, whichever is highest	-
140. 5514 22 00	20% or Rs 140 per kg., whichever is higher	-
141. 5514 23 00	20% or Rs 160 per kg., whichever is higher	-
142. 5514 29 00	20% or Rs. 170 per kg., whichever is higher	-
143. 5514 31 00	20% or Rs 64 per sq. metre, whichever is higher	-
144. 5514 32 00	20% or Rs. 43 per sq. metre, whichever is highest	-
145. 5514 33 00	20% or Rs. 180 per kg., whichever is higher	-
146. 5514 39 00	20% or Rs. 31 per sq. metre, whichever is higher	-
147. 5514 41 00	20% or Rs. 26 per sq. metre, whichever is higher	-
148. 5514 42 00	20% or Rs. 140 per kg., whichever is higher	-

149. 5514 43 00	20% or Rs. 31 per sq. metre, whichever is higher	-
150. 5514 49 00	20% or Rs. 160 per kg., whichever is higher	-
151. 5515 11	20% or Rs. 40 per sq. metre, whichever is higher	-
152. 5515 12	20% or Rs. 95 per kg., whichever is higher	-
153. 5515 13	20% or Rs. 75 per sq. metre, whichever is higher	-
154. 5515 19	20% or Rs. 45 per sq. metre, whichever is higher	-
155. 5515 21	20% or Rs. 79 per sq. metre, whichever is higher	-
156. 5515 22	20% or Rs. 140 per kg., whichever is higher	-
157. 5515 29	20% or Rs. 30 per sq. metre, whichever is higher	-
158. 5515 91	20% or Rs. 57 per sq. metre, whichever is higher	-
159. 5515 92	20% or Rs. 55 per sq. metre, whichever is higher	-
160. 5515 99	20% or Rs. 35 per sq. metre, whichever is higher	-
161. 5516 11	20%	-
162. 5516 12 00	20% or Rs. 35 per sq. metre, whichever is higher	-
163. 5516 13 00	20% or Rs. 40 per sq. metre, whichever is higher	-

164. 5516 14	20% or Rs. 12 per sq. metre, whichever is higher	-
165. 5516 21	20%	-
166. 5516 22 00 and 5516 23 00	20% or Rs. 150 per kg., whichever is higher	-
167. 5516 24 00	20% or Rs. 12 per sq. metre, whichever is higher	-
168. 5516 31, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 41 and 5516 42 00	20%	-
169. 5516 43 00 and 5516 44 00	20% or Rs. 12 per sq. metre, whichever is higher	-
170. 5516 91 and 5516 92 00	20%	-
171. 5516 93 00	20% or Rs. 21 per sq. metre, whichever is higher	-
172. 5516 94 00	20% or Rs. 40 per sq. metre, whichever is higher	-
173. 5601, 5602, 5203, 5608 and 5609	20%	-
174. 5701, 5702 10 00, 5702 20 and 5702 31	20%	-
175. 5702 32	20% or Rs. 105 per sq. metre, whichever is higher	-
176. 5702 39 and 5702 41 00	20%	-
177. 5702 42	20% or Rs. 80 per sq. metre, whichever is higher	-
178. 5702 49 and 5702 51	20%	-
179. 5702 52	20% or Rs. 105 per sq. metre, whichever is higher	-
180. 5702 59 and 5702 91	20%	-
181. 5702 92	20% or Rs. 110 per sq. metre, whichever is higher	-
182. 5702 99 and 5703 10	20%	-

183. 5703 20	20% or Rs. 70 per sq. metre, whichever is higher	-
184. 5703 30	20% or Rs. 55 per sq. metre, whichever is higher	-
185. 5703 90 and 5704 10	20%	-
186. 5704 90	20% or Rs. 35 per sq. metre, whichever is higher	-
187. 5705	20%	-
188. 5801 10 00	20% or Rs. 210 per sq. metre, whichever is higher	-
189. 5801 21 00	20% or Rs. 80 per sq. metre, whichever is higher	-
190. 5801 22	20% or Rs. 75 per sq. metre, whichever is higher	-
191. 5801 23 00	20% or Rs. 80 per sq. metre, whichever is higher	-
192. 5801 24 00	20% or Rs. 135 per sq. metre, whichever is higher	-
193. 5801 25 00	20% or Rs. 120 per sq. metre, whichever is higher	-
194. 5801 26 00	20% or Rs. 180 per sq. metre, whichever is higher	-
195. 5801 31 00	20% or Rs. 75 per sq. metre, whichever is higher	-
196. 5801 32 00	20% or Rs. 180 per sq. metre, whichever is higher	-
197. 5801 33 00	20% or Rs. 150 per sq. metre, whichever is higher	-
198. 5801 34	20% or Rs. 140 per sq. metre, whichever is higher	-

199. 5801 35 00	20% or Rs. 68 per sq. metre, whichever is higher	-
200. 5801 36	20% or Rs. 130 per sq. metre, whichever is higher	-
201. 5801 90	20% or Rs. 35 per sq. metre, whichever is higher	-
202. 5802 11 00	20%	-
203. 5802 19	20% or Rs. 60 per sq. metre, whichever is higher	-
204. 5802 20 00	20%	-
205. 5802 30 00	20% or Rs. 150 per kg., whichever is higher	-
206. 5803	20%	-
207. 5804	20% or Rs. 200 per kg., whichever is higher	-
208. 5805, 5806, 5807, 5808 and 5809	20%	-
209. 5810 10 00	20% or Rs. 200 per kg., whichever is higher	-
210. 5810 91 00, 5810 92, 5810 99 00 and 5811	20%	-
211. 59	20%	-
212. 60 (except 6001 92 00)	20%	-
213. 6001 92 00	20% or Rs. 100 per kg., whichever is higher	-
214. 6101 10	20% or Rs. 700 per piece, whichever is higher	-
215. 6101 20 00	20% or Rs. 540 per piece, whichever is higher	-
216. 6101 30	20% or Rs. 530 per piece, whichever is higher	-
217. 6101 90	20%	-

218. 6102 10 00	20% or Rs. 595 per piece, whichever is higher	-
219. 6102 20 00	20% or Rs. 425 per piece, whichever is higher	-
220. 6102 30	20% or Rs. 475 per piece, whichever is higher	-
221. 6102 90, 6103, 6104 11 00, 6104 12 00 and 6104 13 00	20%	-
222. 6104 19	20% or Rs. 460 per piece, whichever is higher	-
223. 6104 21 00, 6104 22 00, 6104 23 00, 6104 29, 6104 31 00, 6104 32 00, 6104 33 00 and 6104 39	20%	-
224. 6104 41 00	20% or Rs. 255 per piece, whichever is higher	-
225. 6104 42 00	20%	-
226. 6104 43 00 and 6104 44 00	20% or Rs. 255 per piece, whichever is higher	-
227. 6104 49	20% or Rs. 220 per piece, whichever is higher	-
228. 6104 51 00, 6104 52 00, 6104 53 00 and 6104 59	20% or Rs. 110 per piece, whichever is higher	-
229. 6104 61 00	20%	-
230. 6104 62 00 and 6104 63 00	20% or Rs. 98 per piece, whichever is higher	-
231. 6104 69	20%	-
232. 6105 10 and 6105 20	20% or Rs. 83 per piece, whichever is higher	-
233. 6105 90	20% or Rs. 90 per piece, whichever is higher	-

234. 6106 10 00	20% or Rs. 90 per piece, whichever is higher	-
235. 6106 20	20% or Rs. 25 per piece, whichever is higher	-
236. 6106 90	20% or Rs. 135 per piece, whichever is higher	-
237. 6107 11 00	20% or Rs. 24 per piece, whichever is higher	-
238. 6107 12	20% or Rs. 30 per piece, whichever is higher	-
239. 6107 19, 6107 21 00, 6107 22, 6107 29, 6107 91, 6107 92, 6107 99, 6108 11 and 6108 19	20%	-
240. 6108 21 00 and 6108 22	20% or Rs. 25 per piece, whichever is higher	-
241. 6108 29, 6108 31 00, 6108 32 and 6108 39	20%	-
242. 6108 91 00	20% or Rs. 65 per piece, whichever is higher	-
243. 6108 92	20% or Rs. 60 per piece, whichever is higher	-
244. 6108 99	20%	-
245. 6109 10 00	20% or Rs. 45 per piece, whichever is higher	-
246. 6109 90	20% or Rs. 50 per piece, whichever is higher	-
247. 6110 11, 6110 12 00 and 6110 19 00	20% or Rs. 275 per piece, whichever is higher	-
248. 6110 20 00	20% or Rs. 85 per piece, whichever is higher	-
249. 6110 30	20% or Rs. 110 per piece, whichever is higher	-

250. 6110 90 00	20% or Rs. 105 per piece, whichever is higher	-
251. 6111, 6112, 6113 00 00, 6114, 6115, 6116 and 6117	20%	-
252. 6201 11 00 and 6201 12	20% or Rs. 385 per piece, whichever is higher	-
253. 6201 13	20% or Rs. 320 per piece, whichever is higher	-
254. 6201 19	20%	-
255. 6201 91 00	20% or Rs. 220 per piece, whichever is higher	-
256. 6201 92 00	20% or Rs. 210 per piece, whichever is higher	-
257. 6201 93 00	20% or Rs. 180 per piece, whichever is higher	-
258. 6201 99	20%	-
259. 6202 11	20% or Rs. 385 per piece, whichever is higher	-
260. 6202 12 00	20% or Rs. 210 per piece, whichever is higher	-
261. 6202 13 00	20% or Rs. 385 per piece, whichever is higher	-
262. 6202 19	20%	-
263. 6202 91	20% or Rs. 220 per piece, whichever is higher	-
264. 6202 92	20% or Rs. 160 per piece, whichever is higher	-
265. 6202 93	20% or Rs. 220 per piece, whichever is higher	-
266. 6202 99	20%	-
267. 6203 11 00	20% or Rs. 1100 per piece, whichever is higher	-

268. 6203 12 00	20% or Rs. 720 per piece, whichever is higher	-
269. 6203 19	20% or Rs. 1100 per piece, whichever is higher	-
270. 6203 21 00, 6203 22 00, 6203 23 00 and 6203 29 00	20% or Rs. 145 per piece, whichever is higher	-
271. 6203 31 00	20% or Rs. 815 per piece, whichever is higher	-
272. 6203 32 00	20% or Rs. 440 per piece, whichever is higher	-
273. 6203 33 00	20% or Rs. 320 per piece, whichever is higher	-
274. 6203 39	20% or Rs. 755 per piece, whichever is higher	-
275. 6203 41 00	20% or Rs. 285 per piece, whichever is higher	-
276. 6203 42 00	20% or Rs. 135 per piece, whichever is higher	-
277. 6203 43 00 and 6203 49	20% or Rs. 110 per piece, whichever is higher	-
278. 6204 11 00	20% or Rs. 550 per piece, whichever is higher	-
279. 6204 12 00	20%	-
280. 6204 13 00	20% or Rs. 550 per piece, whichever is higher	-
281. 6204 19	20% or Rs. 500 per piece, whichever is higher	-
282. 6204 21 00, 6204 22, 6204 23 00 and 6204 29	20%	-
283. 6204 31 00	20% or Rs. 370 per piece, whichever is higher	-

284. 6204 32 00	20% or Rs. 650 per piece, whichever is higher	-
285. 6204 33 00	20% or Rs. 390 per piece, whichever is higher	-
286. 6204 39	20% or Rs. 350 per piece, whichever is higher	-
287. 6204 41	20% or Rs. 145 per piece, whichever is higher	-
288. 6204 42	20% or Rs. 116 per piece, whichever is higher	-
289. 6204 43, 6204 44 00 and 6204 49	20% or Rs. 145 per piece, whichever is higher	-
290. 6204 51 00	20% or Rs. 485 per piece, whichever is higher	-
291. 6204 52 00, 6204 53 00 and 6204 59	20%	-
292. 6204 61	20% or Rs. 285 per piece, whichever is higher	-
293. 6204 62 00	20% or Rs. 135 per piece, whichever is higher	-
294. 6204 63 00	20%	-
295. 6204 69	20% or Rs. 135 per piece, whichever is higher	-
296. 6205 10 00	20% or Rs. 200 per piece, whichever is higher	-
297. 6205 20 00	20% or Rs. 85 per piece, whichever is higher	-
298. 6205 30 00	20% or Rs. 120 per piece, whichever is higher	-

299. 6205 90	20% or Rs. 95 per piece, whichever is higher	-
300. 6206 10	20%	-
301. 6206 20 00	20% or Rs. 135 per piece, whichever is higher	-
302. 6206 30 00	20% or Rs. 95 per piece, whichever is higher	-
303. 6206 40 00	20% or Rs. 120 per piece, whichever is higher	-
304. 6206 90 00	20%	-
305. 6207 11 00	20% or Rs. 28 per piece, whichever is higher	-
306. 6207 19	20% or Rs. 30 per piece, whichever is higher	-
307. 6207 21 10, 6207 21 90, 6207 22 00, 6207 29 00, 6207 91 and 6207 92 00	20%	-
308. 6207 99	20% or Rs. 70 per piece, whichever is higher	-
309. 6208 11 00	20% or Rs. 80 per piece, whichever is higher	-
310. 6208 19	20% or Rs. 60 per piece, whichever is higher	-
311. 6208 21 00, 6208 22 00 and 6208 29	20%	-
312. 6208 91	20% or Rs. 95 per piece, whichever is higher	-
313. 6208 92	20% or Rs. 65 per piece, whichever is higher	-
314. 6208 99, 6209 and 6210 10 00	20%	-
315. 6210 20	20% or Rs. 365 per piece, whichever is higher	-

316. 6210 30	20% or Rs. 305 per piece, whichever is higher	-
317. 6210 40 and 6210 50 00	20% or Rs. 65 per piece, whichever is higher	-
318. 6211 11 00, 6211 12 00, 6211 20 00 and 6211 31 00	20%	-
319. 6211 32 00 and 6211 33 00	20% or Rs. 135 per piece, whichever is higher	-
320. 6211 39 00 and 6211 41 00	20%	-
321. 6211 42 and 6211 43 00	20% or Rs. 135 per piece, whichever is higher	-
322. 6211 49 00	20%	-
323. 6212	20% or Rs. 30 per piece, whichever is higher	-
324. 6213	20%	-
325. 6214 10	20% or Rs. 390 per piece, whichever is higher	-
326. 6214 20	20% or Rs. 180 per piece, whichever is higher	-
327. 6214 30 00 and 6214 40 00	20%	-
328. 6214 90	20% or Rs. 75 per piece, whichever is higher	-
329. 6215	20% or Rs. 55 per piece, whichever is higher	-
330. 6216 and 6217	20%	-
331. 63 (except 6301 20 00, 6302 21 00 and 6302 31 00)	20%	-
332. 6301 20 00	20% or Rs. 275 per piece, whichever is higher	-
333. 6302 21 00	20% or Rs. 108 per kg., whichever is higher	-

334. 6302 31 00	20% or Rs. 96 per kg., whichever is higher	-
335. 64	20%	-
336. 65	20%	-
337. 66	20%	-
338. 67	20%	-
339. 68	20%	-
340. 69	20%	-
341. 70	20%	-
342. 71	20%	-
343. 7201 and 7202	20%	-
344. 73	20%	-
345. 74	20%	-
346. 75	10%	-
347. 7615	20%	-
348. 78	20%	-
349. 79	20%	-
350. 81	20%	-
351. 82	20%	-
352. 83	20%	-
353. 84 (except 8407 21 00, 8456 91 00, 8469 11 00, 8470, 8471, 8473 21 00, 8473 29 00, 8473 30 and 8473 50 00)	20%	-
354. 8469 11 00, 8470 and 8471 (except 8471 70)	10%	-
355. 8473 21 00 and 8473 29 00	Nil	-
356. 8473 30	10%	-
357. 8473 50	5%	-
358. 85 (except 8517, 8520 20 00, 8523 11, 8523 12, 8523 13, 8523 20, 8523 90, 8524 31, 8524 40, 8524 91, 8525 20, 8531 20 00, 8532, 8533, 8534 00 00, 8540 40 00, 8541, 8542, 8543 11 00, 8543 81 00 and 8544 70)	20%	-

359. 8517 80 (except 8517 80 30), 8517 90, 8520 20 00, 8532 10 00, 8532 22 00, 8532 23 00, 8532 25 00, 8532 29, 8532 30 00, 8533 10 00, 8533 21, 8533 29, 8533 31, 8533 39, 8533 40, 8534 00 00, 8541 10 00, 8541 21 00, 8541 29 00, 8541 30, 8541 40, 8541 50 00, 8541 60 00 and 8543 81 00	10%	-
360. 8523 11, 8523 12, 8523 13, 8523 20, 8523 90, 8524 31, 8524 40 and 8524 91	5%	-
361. 86	20%	-
362. 87(except 8703, 8710 00 00 and 8711)	20%	-
363. 88 (except 8802 20 00, 8802 30 00, 8802 40 00, 8803 10 00, 8803 20 00 and 8803 30 00)	20%	-
364. 89(except 8908 00 00)	20%	-
365. 90 (except 9009 11 00, 9009 21 00, 9010 41 00, 9010 42 00, 9010 49 00, 9026, 9027 20 00, 9027 30, 9027 50, 9027 80, 9030 40 00, 9030 82 00 and 9031 41 00)	20%	-
366. 9026 10	10%	-
367. 9026 20 00 and 9026 80	5%	-
368. 9026 90 00	Nil	-
369. 9027 20 00, 9027 30, 9027 50 and 9027 80	5%	-
370. 9030 40 00	10%	-
371. 91	20%	-
372. 92	20%	-
373. 93	20%	-
374. 94	20%	-
375. 95	20%	-
376. 96	20%	-
377. 97(except 9704)	20%	-
378. 98 (except 9803 00 00)	20%	-

2. This notification shall come into force on the 9th day of January, 2004.

[F. No. 349/1/2004-TRU]
G.S. KARKI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2004

सं. 6/2004-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 19(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 3क की उपधारा (4) के साथ पठित, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के उपाबंध, के अंतर्गत आने वाले सभी माल को उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन, उद्ग्रहणीय संपूर्ण विशेष अतिरिक्त शुल्क से मुक्त करती है।

2. यह अधिसूचना 9 जनवरी, 2004 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 349/1/2004-टीआरयू]

जी. एस. कार्की, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2004

No. 6/2004-CUSTOMS

G.S.R. 19(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 3A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all the goods covered in the First Schedule to the said Customs Tariff Act, from the whole of the special additional duty leviable under sub-section (1) of section 3A of the said Customs Tariff Act.

2. This notification shall come into force on the 9th day of January, 2004.

[F. No. 349/1/2004-TRU]

G.S. KARKI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2004

सं. 7/2004-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 20(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 21/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 का, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में,—

(I) परंतुक के खंड (क) में शब्द और अंक “1 अप्रैल, 2004” के स्थान पर, अंक और शब्द “1 अप्रैल, 2005” प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(II) सारणी में,—

(i). कम सं0 21 में, स्तंभ (3) में, मद (ग) में शब्द और अंक “वित्तीय वर्ष 2003-2004” के स्थान पर, “एक वित्तीय वर्ष” प्रतिस्थापित किया जायेगा;

- (ii). क्रम सं 62 और 63 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा;
 (iii). क्रम सं 67 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा;
 (iv). क्रम सं 69 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा;
 (v). क्रम सं 70 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“ 70.	2701 11 00 2701 12 00 या 2701 19	सभी माल	15 प्रतिशत	-	- ”;

- (vi). क्रम सं 72 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा;
 (vii). क्रम सं 84 के सामने स्तंभ (3) में मद क और ख के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “कुछ नहीं” प्रतिस्थापित किया जायेगा;
 (viii). क्रम सं 92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा;
 (ix). क्रम सं 97 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा;
 (x). क्रम सं 119 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 20 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
 (xi). क्रम सं 139 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 20 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
 (xii). क्रम सं 174 के सामने स्तंभ (3) में मद (1) और (2) के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “20 प्रतिशत” प्रतिस्थापित किया जायेगा;
 (xiii). क्रम सं 175 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ कुछ नहीं” प्रतिस्थापित की जायेगी;
 (xiv). क्रम सं 176 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ कुछ नहीं” प्रतिस्थापित की जायेगी;
 (xv). क्रम सं 207 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 20 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
 (xvi). क्रम सं 212क के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 20 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
 (xvii). क्रम सं 212ख के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 20 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
 (xviii). क्रम सं 239 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ कुछ नहीं” प्रतिस्थापित की जायेगी;
 (xix). क्रम सं 240 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ कुछ नहीं” प्रतिस्थापित की जायेगी;
 (xx). क्रम सं 241 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ कुछ नहीं” प्रतिस्थापित की जायेगी;
 (xxi). क्रम सं 242 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ कुछ नहीं” प्रतिस्थापित की जायेगी;
 (xxii). क्रम सं 260 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 20 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
 (xxiii). क्रम सं 261 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 20 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
 (xxiv). क्रम सं 271 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा;
 (xxv). क्रम सं 272 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 10 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
 (xxvi). क्रम सं 273 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 10 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;

- (xxvii). क्रम सं 274 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा;
- (xxviii). क्रम सं 277 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 10 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (xxix). क्रम सं 295 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा;
- (xxx). क्रम सं 298 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 10 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (xxxi). क्रम सं 299 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 10 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (xxxii). क्रम सं 300 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 10 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (xxxiii). क्रम सं 303 के सामने स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 8517 90” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (xxxiv). क्रम सं 303 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“ 303क.	8518 10 00	दूरसंचार में प्रयोग होने वाले 300 हर्ट्स से 3, 4 किलो हर्ट्स की तीव्रता और 10मिमी० से कम का व्यास और ऊँचाई 3 मिमी० से कम के माइक्रोफोन	10 प्रतिशत	-	- ”;

- (xxxv). क्रम सं 304 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 5 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (xxxvi). क्रम सं 305 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 5 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (xxxvii). क्रम सं 306 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 10 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (xxxviii). क्रम सं 307 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 10 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (xxxix). क्रम सं 308 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 10 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (xl). क्रम सं 313 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 5 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (xli). क्रम सं 314 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 10 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (xlii). क्रम सं 317 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 5 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (xliii). क्रम सं 324 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 10 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (xliv). क्रम सं 325 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 10 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (xlv). क्रम सं 327 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 10 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (xlvi). क्रम सं 329 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 10 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (xlvii). क्रम सं 330 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 10 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (xlviii). क्रम सं 331 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 10 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;

- (xlix). क्रम सं० 332 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 10 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (l). क्रम सं० 333 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 10 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (li). क्रम सं० 335 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 10 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (lii). क्रम सं० 337 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 10 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (liii). क्रम सं० 339 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 10 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (liv). क्रम सं० 340 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 10 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (lv). क्रम सं० 341 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 10 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (lvi). क्रम सं 375 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा;
- (lvii). क्रम सं० 380 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 10 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (lviii). क्रम सं० 381 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 10 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (lix). क्रम सं 383 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा;
- (lx). क्रम सं 384 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा
- (lxi). क्रम सं 386 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा;
- (lxii). क्रम सं० 399 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“ 399	9801	निम्नलिखित के लिए अपेक्षित माल,- (i) उर्वरक परियोजनाएं (ii) कोयला खनन परियोजनाएं (iii) 5 मेगावाट या अधिक के आबद्ध विद्युत संयंत्र (iv) विद्युत जनित्र परियोजनाएं जिनके अंतर्गत गैस टर्बाइन परियोजनाएं सम्मिलित हैं। विद्युत उत्पादन से भिन्न क्रिया कलापों में लगी प्रयोजनों द्वारा स्थापित आबद्ध विद्युत संयंत्रों को छोड़कर (v) बार्ज मार्जिटिड विद्युत प्लांट (vi) विद्युत प्रसारण, उप प्रसारण या निवेशन परियोजनाएं (vii) अन्य औद्योगिक संयंत्र या परियोजनाएं	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 20 प्रतिशत 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 10 प्रतिशत 20 प्रतिशत	16 प्रतिशत 16 प्रतिशत 16 प्रतिशत 16 प्रतिशत कुछ नहीं 16 प्रतिशत 16 प्रतिशत	- - - - - - -”;

- (lxiii). क्रम सं० 418 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 10 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (lxiv). क्रम सं 431 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा;
- (lxv). क्रम सं० 432 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“ 432.	90 या कोई अन्य अध्याय	(क) शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित माल, अर्थात्,- (i) क्रैचें; (ii) व्हील चेयर; (iii) वार्किंग फ्रेम; (iv) तिपहिया साइकिल; (v) ब्रेलर; (vi) कृत्रिम पैर; (ख) ऊपर (क) में माल के पुर्जे	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	- -	- - ”

(lxvi). क्रम सं० 437 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“ 438.	75, 85, 90	सभी प्रकार के रॉट निक्कल निक्कल की वस्तुएं और निक्कल के एल्योय	5 प्रतिशत	-	-
439.	85 या अन्य कोई अध्याय	लिस्ट 47 में निर्दिष्ट वस्तुएं	5 प्रतिशत	-	47 या 48 या 49 और 93
440.	9028 30	बिजली के मीटर	15 प्रतिशत	-	-
441.	9801	सभी माल	10 प्रतिशत	16 प्रतिशत	94”;

(III) उपाबंध में,-

(अ) शर्तों में शर्त 92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात्

शर्त सं०	शर्त
“93	अगर आयातक, ऐसे अधिकारी से जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि आयातित वस्तुएं अधिकृत सुरक्षा एजेंसी द्वारा काल इंटरसेप्शन और मोनीटरिंग के लिए आयात की गई हैं ।
94	अगर आयातक आयात के समय, जब आयातित वस्तुएं,- (i) ईकाई के प्रारंभिक स्थापन के लिए आयात की जाती हैं तो यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक उपायुक्त को एक वचनबंध देता है कि उसके द्वारा उस ईकाई में किए गए जमीन और भवन को छोड़कर प्लांट और मशीनरी के स्थायी संपत्ति में निवेश की कीमत दो वर्ष के अंदर 5 करोड़ रुपये से कम नहीं होगी । अगर वह इस शर्त का अनुपालन करने में असफल होता है तो आयातित माल पर, यदि इस अधिसूचना के अधीन छूट न दी गई होती तो, उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के बीच अंतर के बराबर रकम का संदाय करने का दायी होगा । (ii) अगर स्थापित ईकाई के सारवान विस्तार के लिए आयात की जाती हैं तो, इस छूट के अंतर्गत पहले आयात के समय, यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक उपायुक्त को उसकी संतुष्टि में सिद्ध करेगा कि उसके द्वारा उस ईकाई में किए गए जमीन और भवन को छोड़कर प्लांट और मशीनरी के स्थायी संपत्ति में निवेश की कीमत 5 करोड़ रुपये से कम नहीं है ।

(आ) सूचियों में,-

(i) सूची 3 में,-

(क) मद सं० 58 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्,-

“(58) माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्ट्रोन”

(ख) मद सं० 104 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात्,-

“(105) इनफिलिक्सीमैब

(106) झोट्रेकोजीन आल्फा (एक्टीवेटिड)

(107) एपटाकोक आल्फा एक्टीवेटिड रीकम्बीनेंट कोगुलेशन फैक्टर VII क

(108) म्यूरोमेनेब सी डी 3

(109) जेपेनिज एनसाफलाइटिस वेक्सिन

(110) इंटरलीकोन-2

(111) वालगन साइक्लोवीर

(112) कम आणविक भार का हेपेरिन”

(ii) सूची 37 में,-

(क) मद (92) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्,-

“(92) हेलीकल/स्पाइरल सीटी स्केनर लेजर केमरे के साथ या रहित”

(ख) मद (98) के पश्चात् निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात्,-

“(99) पोर्जीट्रोन एमीशन टोमोग्राफी (पीईटी)

(100) पीईसी - सीटी कंबाईंड

(101) मेडीकल साइक्लोड्रान

(102) मुत्र रसायन एनालाइजर

(103) फंगशनल न्यूरो सर्जरी के लिए स्टीरियो स्टेटिक ब्रेन लीजनिंग हेतु रेडियो तीव्रता लीजन जनरेटर (न्यूरो जनरेटर)

(104) टेले थ्रापी (रेडियो थ्रापी) सेमुलेटर मशीन

(105) एचआईवी वाइरस का लोड जानने के लिए स्वचालित पीसीआर एनालाइजर सिस्टम (पीसीआर किट)

(106) सीडी-4 काउंट के लिए फलो साइक्लोमीटर हिमेटोलॉजी एनालाइजर

(107) आईवी लाइन फिल्टर

(108) मल्टी सलाइस/ईबीटी सीटी स्केन

(109) थेलेसीमिया मरीजों के लिए लूको साइट और प्लेटलेट डप्लीशन फिल्टर

(110) मलेरिया पैरासाइट का इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए रेपिड डाइगनोस्टीक किट

(111) लीनियर एक्सीलेटर ”

(iii) सूची 38 में, मद 36 के पश्चात् निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात्,-

“(37) अल्ट्रासोनिक बाइमाइक्रोस्कोप

(38) कोनफोकलो माइक्रोस्कोप

(39) एवी स्केन

(40) कोर्निया टोपोग्राफी मशीन

(41) पैरामीटर आटोमेटिड

(42) नॉन कांटेक्ट टोनोमीटर

(43) नेरो फाइबर लेअर एनालाइजर

(44) फंडस फ्लोरेसिन एन्जोग्राफी मशीन (वीडियो ग्राफी सहित डिजीटल)

(45) ऑप्टिकल कोहेरेन्स टोमोग्राफी मशीन

(46) फोटो डाइनमिक थ्रेपीलेजर

(47) ट्रांस प्यूपलरी थर्मो थ्रेपीलेजर

(iv) सूची 46 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात्,-

“सूची 47 (सारणी का क्रम संख्यांक 439 देखिये)”

1. स्केम्बलर्स
 2. डीस्केम्बलर्स
 3. एनकोडर्स
 4. डीकोडर्स
 5. जेमर्स
 6. नेटवर्क फायर वाल्स
 7. नेटवर्क स्नेफर्स, स्केनर्स और मोनेटरिंग सिस्टम
 8. डेटा मोनेटरिंग के लिए प्रोब
 9. एसएमएस और एमएमएस मोनेटरिंग सिस्टम” ।
2. यह अधिसूचना 9 जनवरी, 2004 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 349/1/2004-टीआरयू]

जी. एस. कार्की, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में अधिसूचना सं० 21/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 [सा० का० नि० 118 (अ), तारीख 1 मार्च, 2002] द्वारा प्रकाशित हुई थी, एवं उसका अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं० 3/2004-सीमाशुल्क, तारीख 7 जनवरी, 2004 [सा० का० नि० 15 (अ), तारीख 7 जनवरी, 2004] द्वारा किया गया ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2004

No. 7/2004-CUSTOMS

G.S.R. 20(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002, namely:-

In the said notification,-

(I) in the proviso, in clause (a), for the figures, letters and words “1st day of April, 2004”, the figures, letters and words “1st day of April, 2005” shall be substituted;

(II) in the Table,-

- (i) against S.No.21, in column (3), in item (c), for the words and figures “the financial year 2003-04”, the words “a financial year” shall be substituted;
- (ii) S.Nos.62 and 63 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iii) S.No.67 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iv) S.No.69 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (v) for S.No.70 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“70.	2701 11 00, 2701 12 00 or 2701 19	All goods	15%	-	”;

- (vi) S.No.72 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (vii) against S.No.84, in column (3), against items (A) and (B), for the entries in column (4), the entry “Nil” shall respectively be substituted;

- (viii) S.No.92 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (ix) S.No.97 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (x) against S.No.119, for the entry in column (4), the entry "20%" shall be substituted;
- (xi) against S.No.139, for the entry in column (4), the entry "20%" shall be substituted;
- (xii) against S.No.174, in column (3), against items (1) and (2), for the entries in column (4), the entry "20%" shall respectively be substituted;
- (xiii) against S.No.175, for the entry in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;
- (xiv) against S.No.176, for the entry in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;
- (xv) against S.No.207, for the entry in column (4), the entry "20%" shall be substituted;
- (xvi) against S.No.212A, for the entry in column (4), the entry "20%" shall be substituted;
- (xvii) against S.No.212B, for the entry in column (4), the entry "20%" shall be substituted;
- (xviii) against S.No.239, for the entry in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;
- (xix) against S.No.240, for the entry in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;
- (xx) against S.No.241, for the entry in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;
- (xxi) against S.No.242, for the entry in column (4), the entry "Nil" shall be substituted;
- (xxii) against S.No.260, for the entry in column (4), the entry "20%" shall be substituted;
- (xxiii) against S.No.261, for the entry in column (4), the entry "20%" shall be substituted;
- (xxiv) S.No.271 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (xxv) against S.No.272, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (xxvi) against S.No.273, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (xxvii) S.No.274 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (xxviii) against S.No.277, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (xxix) S.No.295 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (xxx) against S.No.298, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (xxxi) against S.No.299, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (xxxii) against S.No.300, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (xxxiii) against S.No.303, for the entry in column (2), the entry "8517 90" shall be substituted;
- (xxxiv) after S. No. 303 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"303A.	8518 10 00	Microphones having a frequency range of 300 Hz to 3, 4 KHz with a diameter of not exceeding 10mm and height not exceeding 3mm, for telecommunication use	10%	-	-";

- (xxxv) against S.No.304, for the entry in column (4), the entry "5%" shall be substituted;
- (xxxvi) against S.No.305, for the entry in column (4), the entry "5%" shall be substituted;
- (xxxvii) against S.No.306, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (xxxviii) against S.No.307, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (xxxix) against S.No.308, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (xl) against S.No.313, for the entry in column (4), the entry "5%" shall be substituted;
- (xli) against S.No.314, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (xlii) against S.No.317, for the entry in column (4), the entry "5%" shall be substituted;
- (xliii) against S.No.324, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (xliv) against S.No.325, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (xlv) against S.No.327, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (xlvi) against S.No.329, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (xlvii) against S.No.330, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (xlviii) against S.No.331, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (xlix) against S.No.332, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (l) against S.No.333, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (li) against S.No.335, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (lii) against S.No.337, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (liii) against S.No.339, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (liv) against S.No.340, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (lv) against S.No.341, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
- (lvi) S.No.375 and the entries relating thereto shall be omitted;

- (lvii) against S.No.380, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
 (lviii) against S.No.381, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
 (lix) S. No. 383 and the entries relating thereto shall be omitted;
 (lx) S. No. 384 and the entries relating thereto shall be omitted;
 (lxi) S.No.386 and the entries relating thereto shall be omitted;
 (lxii) for S.No.399 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"399.	9801	Goods required for-			
		(i) fertiliser projects;	5%	16%	-
		(ii) coal mining projects;	5%	16%	-
		(iii) captive power plants of 5 MW or more;	20%	16%	-
		(iv) power generation projects including gas turbine power projects (excluding captive power plants set up by projects engaged in activities other than in power generation);	5%	16%	-
		(v) barge mounted power plants;	5%	Nil	-
		(vi) power transmission, sub-transmission or distribution projects;	10%	16%	-
		(vii) other industrial plants or projects	20%	16%	-";

- (lxiii) against S.No.418, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;
 (lxiv) S. No. 431 and the entries relating thereto shall be omitted;
 (lxv) for S.No.432 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"432.	90 or any other Chapter	(A) The following goods for physically disabled persons, namely:- (i) Crutches; (ii) Wheel chairs; (iii) Walking frames; (iv) Tricycles; (v) Brailers; (vi) Artificial limbs (B) Parts of goods at (A) above	5%	-	-
			5%	-	-";

- (lxvi) after S.No.437 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"438.	75, 85, 90	Nickel and articles of nickel	5%	-	-
439.	85 or any other Chapter	Goods specified in List 47	5%	-	47 or 48 or 49, and 93
440.	9028 30	Electricity meter	15%	-	-
441.	9801	All goods	10%	16%	94 ";

(III) in the ANNEXURE,-

(A) after Condition No. 92 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

Condition No.	Conditions
"93.	If the importer produces a certificate from an officer not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs that the imported goods are required for call interception and monitoring, to be used by authorized security agencies.
94.	<p>If the importer, at the time of importation, where the goods are imported for,—</p> <p>(i) initial setting up of a unit, furnishes an undertaking to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, that the value of the investment to be made, in fixed assets in plant and machinery (excluding land and building) in the said unit, within a period of two years from the date of first import under this exemption, shall not be less than rupees five crore and in the event of failure to comply with this condition, he shall pay an amount equal to the difference between the duty leviable on the said imported goods but for the exemption under this notification and that already paid at the time of importation;</p> <p>(ii) substantial expansion of an existing unit, proves to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, that the value of the investment made, in fixed assets in plant and machinery (excluding land and building) in the said unit, is more than rupees five crore at the time of first import under this exemption.”;</p>

(B) in the Lists,-

(i) in List 3,-

(a) for item (58), the following item shall be substituted, namely:-

“(58) Micronised progesterone”;

(b) after item (104), the following items shall be inserted, namely:-

- “(105) Infliximab
- (106) Drotrecogin alfa (activated)
- (107) Eptacog alfa activated recombinant coagulation factor VIIa
- (108) Muromonab CD3
- (109) Japanese encephalitis vaccine
- (110) Interleukin-2
- (111) Valgancyclovir
- (112) Low molecular weight heparin”;

(ii) in List 37,-

(a) for item (92), the following item shall be substituted, namely:-

“(92) Helical/Spiral C.T. Scanner with or without Laser Camera”;

(b) after item (98), the following items shall be inserted, namely:-

- “(99) Positron emission tomography (PET)
- (100) PEC-CT combined
- (101) Medical cyclotron
- (102) Urine chemistry analyzer
- (103) Radio frequency lesion generator (Neurogenerator) for stereotactic brain lesioning for functional neurosurgery
- (104) Teletherapy (Radiotherapy) simulator machine
- (105) Automated PCR analyzer system for detection and monitoring of HIV viral load (PCR Kits)

- (106) Flow cytometer hematology analyzer for CD4 count
- (107) I. V. Line Filters
- (108) Multi-slice/EBT CT scan
- (109) Leucocyte and platelets depletion filters for thalassaemia patients
- (110) Rapid diagnostic kit for detecting infection with malarial parasite
- (111) Linear accelerator”;

(iii) in List 38, after item (36), the following items shall be inserted, namely:-

- “(37) Ultrasonic bi-microscope
- (38) Confocal microscope
- (39) AB scan
- (40) Corneal topographic machine
- (41) Perimeter automated
- (42) Non contact tonometer
- (43) Nerve fibre layer analyzer
- (44) Fundus fluorescein angiography machine (digital with videography)
- (45) Optical coherence tomography machine
- (46) Photo dynamic therapy-laser
- (47) Transpupillary thermo therapy laser”;

(iv) after List 46 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

“List 47 (See S.No.439 of the Table)

1. Scramblers
2. Descramblers
3. Encoders
4. Decoders
5. Jammers
6. Network firewalls
7. Network sniffers, scanners and monitoring systems
8. Probes for data monitoring
9. SMS and MMS monitoring systems”.

2. This notification shall come into force on the 9th day of January, 2004.

[F.No. 349/1/2004-TRU]

[F.No. 349/1/2004-TRU]

G.S. KARKI, Under Secy.

Note: The principal notification No.21/2002-Customs dated the dated the 1st March, 2002, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide G.S.R.118 (E), dated the 1st March, 2002, and was last amended by notification No.3/2004-Customs, dated the 7th January, 2004 [G.S.R. 15 (E), dated the 7th January, 2004].

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2004

सं. 8/2004-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 21(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के तदेन वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 25/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 का, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,—

(क) प्रारम्भिक पैराग्राफ में शब्दों और अंकों “उस पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के जो उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, उतने भाग से जो मूल्यानुसार 10 प्रतिशत की दर पर संगणित रकम से अधिक है,” के स्थान पर “संपूर्ण सीमाशुल्क जो उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है से ” प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(ख) सारणी में क्रम सं0 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात्,—

क्रम सं0	आयातित माल का विवरण	तैयार माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
“28.	हैडलर और उसके उपसाधन	पीसीबी असेम्बली
29.	स्वचालित टेस्ट और परीक्षण उपकरण	पीसीबी असेम्बली
30.	प्रेस, जिसमें हाइड्रोलिक गति प्रेस भी सम्मिलित है (400 स्ट्रोक प्रति मिनट या उससे अच्छी)	कनेक्टर, रजिस्टर और पोटेंशियोमीटर, साफ्ट फेराइट
31.	छपाई मशीन जिसमें बेडोलेटिंग मशीन भी सम्मिलित है, इंक जेट छपाई मशीन और अन्य छपाई मशीन	रजिस्टर, कैपेसिटर्स, सेमी कंडक्टर, कनेक्टर्स, रिलेज, स्विच
32.	स्वचालित शोरटर या हैडलर	रजिस्टर, कैपेसिटर्स, सेमी कंडक्टर, कनेक्टर्स, रिलेज, स्विच
33.	स्वचालित या अर्ध स्वचालित वाइडिंग मशीन	प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर्स, रजिस्टर, क्वायल, फिलटर, वायर वाउन्ड रजिस्टर, हैलीपाट
34.	कनेक्टर्स के लिए सीएनसी वायर कट मशीन	रजिस्टर, कैपेसिटर्स, सेमी कंडक्टर, कनेक्टर्स, रिलेज, स्विच
35.	सीएनसी सिलीटिंग/कटिंग मशीन	रजिस्टर, कैपेसिटर्स, सेमी कंडक्टर, कनेक्टर्स, रिलेज, स्विच
36.	डाइमंड पेलेट ग्राइडिंग व्हील	फेराइट
37.	डाइमंड सिलीटिंग शा	फेराइट
38.	फोरमिंग और टेपिंग मशीन या दोनों का योग	प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर्स
39.	फिल्म/ फवाइल सिलीटिंग मशीन	फिल्म कैपेसिटर्स
40.	क्योरिंग के लिए कनवेयर/बॉक्स ओवन	कैपेसिटर्स
41.	तापमान टेस्ट सिस्टम या ओसी लेटर टेस्ट सिस्टम	माऊंटेड पिजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स
42.	ओवन/फर्निश जिसमें फोस्ट एयर या इनर्ट वातावरणीय हाइड्रोजन या वाइकुंम बेकिंग/सिल्टिंग/साइकलिंग टाइप के ओवन भी सम्मिलित हैं	फेराइट
43.	डिप टिनिंग/ शोल्डरिंग मशीन	रिले, काइल्स
44.	सिलिंग उपकरण	रजिस्टर, कैपेसिटर्स, सेमी कंडक्टर, कनेक्टर्स, रिलेज, स्विच
45.	इन्सुलेशन टेस्टर	एक्ससरा हाई टैशन/फलाइ बैक ट्रांसफॉर्मर ; डिफ्लेक्शन योक

46.	गास मीटर	डिफ्लेक्शन कम्पोनेन्ट्स, सीआरटी मोनीटर्स/कलर टेलीविजन
47.	एक्सरे गोनियो मीटर/पिजो गोनियो मीटर	क्रिस्टल्स और ओसीलेटर, माऊंटिड पिजो इलेक्टिक क्रिस्टल्स
48.	डैस्ट लेवल मॉनीटर/फ्यूम हैड/डस्ट प्रेसिपीटेटर	रजिस्टर, केपेस्टर्स, सेमी कंडक्टर्स, कनेस्टर्स, रिलेज, स्विच
49.	वेपर डिपोटिड थिकनस या थिकनस टेस्टर ; प्लेटिड थिकनस के लिए मोनीटर	रजिस्टर, केपेस्टर्स, सेमी कंडक्टर्स, कनेस्टर्स, रिलेज, स्विच
50.	हिस्टेरिक/चुंबकीय परमेबिलिटी टेस्टर	रिलेज
51.	पिक और प्लेस, कंपोनेन्ट माऊंटिंग मशीन	पीसीबी असेम्बली
52.	यूवी एक्सपोज़र उपकरण	केपेस्टर
53.	कनवेयर फर्नेश; बाक्स फर्नेश ; ताप आलक उपकरण ; इन्सुलेशन जोस टेस्टर, स्पेक्ट्रम एनालाइजर ; सील लॉक टेस्टर ; प्लेटिंग मोटाई टेस्टर ; आईआर टेस्टर/मीटर, सोल्विंग गन; एलसीआर मीटर; एसएमडी पिक और प्लेस मशीन; आईआर री फ्लो ओवन ; माइक्रोस्कोप; लूमीनोसिटी टेस्ट सेटअप; पॉवर सप्लाई; बर्न एंड लाइफ टेस्ट सेटअप; ताप कंट्रोल शोल्डरिंग स्टेशन; एनवी चश्मे; हाई वोल्टेज एसी/डीसी पॉवर सप्लाई आद्रता चेम्बर; उच्च/निम्न ताप चेम्बर्स; वातावरण टेस्ट स्टेशन; लूमीनर स्टेशन ; अल्ट्रा सोनिक क्लीनर स्टेशन ; स्वचालित गणक मशीन	ईएमआई/आरएफआई फिल्टर्स, एलईडी इंडीकेटर लैम्प और डिस्प्ले सिस्टम
54.	कनवेयर फाइरिंग ओवन बीटीयू; स्वचालित टेस्टर्स ; टेप और रील मशीन; प्रिंटर/स्क्रीन प्रिंटर ; गर्म हवा ब्लोवर्स ; मेटेलाइजिंग मशीन; एजिंग/टेस्टिंग मशीन ; एपोक्सी डिस्पेंसिंग, कोटिंग, इनकेप्सुलेटिंग मशीन; वायर रैपिंग मशीन; वायर रैपिंग औजार ; आटो शाइंग मशीन जिग्स के साथ और डस्ट एक्सट्रेक्टर ; ऑप्टिकल कंपैरेटर ; ट्रिपल रोल मिल/बाल मिल; मास्क और उपसाधन सहित	केपेस्टर्स
	कंप्लीट मार्किंग मशीन; आटो पिन्; लैड कटिंग; फोरमिंग मशीन ; लैड वैल्विंग मशीन; लाइफ टेस्ट/बर्न इन मशीन/जिग्स/फिक्चर्स; रेजिंग भरने वाले उपकरण; आटो स्टेकर स्क्रेब डाउन स्टेशन; चिप्स शोर्टर; पाऊडिक मशीन; मोम चढ़ाने वाली मशीन; वायर फोरमिंग मशीन जिग्स के साथ; बेकिंग ओवन; स्टेक टू कपेस्टेन्स स्टेशन; मेनुवल साइन मशीन जिग्स के साथ शोल्डरिंग बैच; ओवन; बाक्स फर्निश; आटो लीड कटिंग मशीन; आटो प्रिंटर; आटो रेजिन मिक्सर; ईएफ 60; एलसीआर ब्रिज; निम्न ताप चेम्बर; आद्रता चेम्बर; इन्सुलेशन रजिस्टेंस टेस्टर; केलीब्रेशन स्टेन्डर्स	

55.	इलेक्ट्रॉनिक मापक यंत्र (तस्ल, गैस, ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश फैलाव) वोल्टेज, करंट, रजिस्टेंस /इन्ड्युलेशन रजिस्टेंस और अन्य इलेक्ट्रिकल क्वानटीस मापक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र	ईएमआई/आरएफआई फिल्टर्स, एलईडी इंडीकेटर लैम्प और डिस्प्ले सिस्टम
56.	मेगनेट सिस्टम ग्लू मशीन (हैड ए + बी दोनों); एक हैड एबी ग्लू मशीन; एक हैड एकक ग्लू मशीन; दो हैड ग्लू मशीन (एक हैड एकक ग्लू/एक हैड एबी ग्लू); कॉन आइलेटिंग मशीन; हस्त डिस्पेंसर एकक ग्लू; हस्त डिस्पेंसर एबी ग्लू; ग्लू मशीन के लिए जिग; बाल पैट	लाडस्पीकर
57.	प्रिंसीजन शोल्डर पेस्ट प्रिंटर; अडेसिव डिस्पेंसिव मशीन; कन्वेयर बेल्ट सिस्टम; उच्च गति चिप्स शोटर फाइन पिच पेलेसमेंट मशीन; फीडर्स; रि फलो ओवन; आटो वेव शोल्डरिंग मशीन; आटो पीसीबी लोडर; पीसीबी इंसरेशन करवेयर सिस्टम	पीसीबी असेम्बली

2. यह अधिसूचना 9 जनवरी, 2004 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 349/1/2004-टीआरयू]

जी. एस. कार्की, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में अधिसूचना सं० 25/2002—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 [सा० का० नि० 122 (अ), तारीख 1 मार्च, 2002] द्वारा प्रकाशित हुई थी, एवं उसका अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं० 69/2003—सीमाशुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 2003 [सा० का० नि० 370 (अ), तारीख 30 अप्रैल, 2003] द्वारा किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2004

No. 8/2004-CUSTOMS

G.S.R. 21(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 25/2002-Customs, dated the 1st March, 2002, namely:-

In the said notification,-

- (A) in the opening paragraph, for the words, figure and letters "from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate of 10% *ad valorem*", the words "from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule" shall be substituted;
- (B) in the TABLE, after S.No.27 and the entries relating thereto, following shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"28.	Handler and their accessories	PCB assemblies
29.	Automatic test and inspection equipment	PCB assemblies

30.	Press including high speed precision press (400 strokes per minute or better)	Connectors, resistors and potentiometers, soft ferrites
31.	Printing including bandoleering machines; ink jet printing machines and other printing machines	Resistors, capacitors, semiconductors, connectors, relays, switches
32.	Automatic sorter or handler	Resistors, capacitors, semiconductors, connectors, relays, switches
33.	Automatic/semi-automatic winding machines	Plastic film capacitors, coils, filters, wire wound resistors and hellipots
34.	CNC wire cut machines for connectors	Resistors, capacitors, semiconductors, connectors, relays, switches
35.	CNC slitting/cutting machines	Resistors, capacitors, semiconductors, connectors, relays, switches
36.	Diamond pellet grinding wheel	Ferrite
37.	Diamond slitting saw	Ferrite
38.	Forming and taping machine or combination of both	Plastic film capacitors
39.	Film/foil slitting machine	Film capacitors
40.	Conveyor/box ovens for curing	Capacitors
41.	Temperature test system or oscillator test system	Mounted piezo electric crystals
42.	Ovens/furnace including forced air or inert atmospheric hydrogen or vacuum baking/sintering/cycling type ovens	Ferrites
43.	Dip tinning/soldering machine	Relay, coils
44.	Sealing equipment	Resistors, capacitors, semiconductors, connectors, relays, switches
45.	Insulation tester	Extra High Tension /Fly Back Transformer, Deflection Yoke
46.	Gauss meter	Deflection components, CRT monitors/CTVs
47.	X-Ray goniometer/ piezo goniometer	Crystals and oscillator, mounted piezo electric crystals.
48.	Dust level monitor/fume hood/dust precipitator	Resistors, capacitors, semiconductors, connectors, relays, switches
49.	Monitor for plated thickness or vapour deposited thickness/thickness tester	Resistors, capacitors, semiconductors, connectors, relays, switches
50.	Histeric/magnetic permeability tester	Relays
51.	Pick and place, component mounting machine	PCB assemblies
52.	UV exposure equipment	Capacitors
53.	Conveyor furnace; box furnace; temperature conducting equipment; insertion loss testers; spectrum analyzer; seal lock tester; plating thickness tester; IR tester/meter; soldering gun; LCR meters; SMD pick and place machine; IR re-flow ovens; microscopes; luminosity test set up; power supplies; burn and life test set up; temperature control soldering station; auto testers; solderability testing station; N.V. goggles; high voltage AC/DC power supply; humidity chambers; high/low temperature chambers; environmental test station; luminar station; ultrasonic cleaner station; automatic counting machine	EMI/RFI filters, LED indicator lamps and display systems
54.	Conveyor firing oven BTU; automatic testers; tape and reel machine; printers/screen printers; hot air blowers; metallising machine; ageing/testing machine; epoxy dispensing, coating, encapsulating machine; wire wrapping	Capacitors

	machine; wire wrapping tools; auto sawing machine with jigs and dust extract; optical comparator; triple roll mill/ball mills; marking machine complete with masks and accessories; auto pin; lead cutting/ forming machine; lead welding machine; life test/burn in machine/ jigs/fixtures; resin filling equipment; auto stacker; scratch down station; chip sorter; powder dip machine; wax impregnation machine; wire forming machine with jigs; baking ovens; stack to capacitance station; manual sawing machine with jigs; soldering bench; oven; box furnace; auto lead cutting machine; auto printer; auto resin mixer EF 60; LCR bridge; low temperature chamber; humidity chamber; insulation resistance tester; calibration standards	
55.	Electronic measuring apparatus (liquid, gases, heat, sound, light, expansion); electronic apparatus for measuring voltage, current, resistance/insulation resistance and other	Capacitor, EMI/RFI filter, LED indicator lamps and display systems

	electrical quantities	
56.	Magnet system glue machine (both head A+B); one head AB glue machine; one head single glue machine; two head glue machine (one head single glue/one head AB glue); cone eyeletting machine; hand dispenser single glue; hand dispenser AB glue; jigs for glue machines; ball pet	Loud speakers
57.	Precision solder paste printer; adhesive dispensing machine; conveyor belt system; high speed chip shooter; fine pitch placement machine; feeders; re-flow oven; auto wave soldering machine; auto PCB loader; PCB insertion conveyor system	PCB Assemblies"

2. This notification shall come into force on the 9th day of January, 2004.

[F. No. 349/1/2004-TRU]

G.S. KARKI, Under Secy.

Note: The principal notification No.25/2002-Customs dated the dated the 1st March, 2002, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide G.S.R. 122(E), dated the 1st March, 2002, and was last amended by notification No.69/2003-Customs, dated the 30th April, 2003 [G.S.R. 370(E), dated the 30th April, 2003].

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2004

सं. 9/2004-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 22(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 25/99-सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1999 का, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(अ) प्रारम्भिक पैराग्राफ में शब्दों “ उतने भाग से ” से आरंभ होने वाले और शब्दों “ छूट देती हैं ” पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

(क) सूची “ क ” विनिर्दिष्ट माल की दशा में शून्य

(ख) सूची “ क ” विनिर्दिष्ट माल की दशा में 5 प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है, छूट देती हैं

(आ) सारणी में,-

(i) सूची क में, क्रम सं० 168 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“169	76	एल्युमिनियम क्लैड एंटी फोइल	प्रिंटेड सर्किट बोर्ड
170	28	फास्फोरिस एसिड (एमओएस/सीएमओएस, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेड); हाइड्रोजन पैरोक्साइड (एमओएस/सीएमओएस, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेड)	सेमी कंडेक्टर डिवाइस , एलईडी/एलइडी डिस्प्ले
171	74,76,80	एल्युमिनियम वायर विद सिलिकोन या मेगनिजियम जिसमें 2 प्रतिशत तक की अशुद्धता हों ; बोर्डिंग वायर (एल्युमिनियम, गोल्ड और कोपर बेस्ड)	सेमी कंडेक्टर डिवाइस , एलईडी/एलइडी डिस्प्ले, हाईब्रिड माइक्रो सर्किट
172	80	किसी भी प्रकार का टिन, सिल्वर, एंटीमोनी अलोय	सेमी कंडेक्टर डिवाइस , एलईडी/एलइडी डिस्प्ले,
173	28	कम से कम 99 प्रतिशत शुद्धता वाली टाइटानियम ड्राई आक्साइड	पोटेन्शियोमीटर, सेरामिक केपासिटर
174	28,29, 35,72 और 81	बेरियम ब्रोमाइड; सोडियम अलोमिनेट; बेरियम अलोमिनेट; मेथोक्लोन; मेथिल क्लोराइड; ड्राइक्लोरोमिथेन; टाइटानियम मेटल पाऊडर (99 प्रतिशत शुद्धता); सेसियम ग्लास पाऊडर; बेरियम ग्लास पाऊडर;	गैस डिस्चार्ज ट्यूब

		आर्गोन-नियोन मिक्स्ड गैस (99 प्रतिशत शुद्धता); आर्गोन-हाइड्रोजन मिक्स्ड गैस (99 प्रतिशत शुद्धता); 1.5 एमएम तक डायामीटर वाली कोपर प्लाइड स्टील वायर (टिन प्लेटिड) ; ऐडिसिव पेस्ट	
175	39	टेडलर फिल्म	प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, सेमी कंडक्टर डिवाइसिज, मल्टीलेयर लेमिनेट, ग्लास एपोकसी कोपर क्लेड लेमिनेट
176	39	पॉलिस्टर फिल्म	मेगनेटिक टेप, प्लास्टिक फिल्म कैपासिटर
177	29, 39	एमईके (मेथाइल इथाइल किटोन); पोलियूरेथेन/यूरेथेन एलास्टोमर; साइक्लोहक्सालोन	मेगनेटिक टेप
178	39	पोलिओलेफिन हीट श्रिकेबल टयूब/स्लीव	डिफ्लेक्शन कंपोनेंट
179	27, 39, 75, 85	किलो पायस ग्रीस; पोलिस्टरमेश; बेयर या एनामिल्ड निकिल अलोय रिजस्टेंस वायर और स्ट्रीप	रेजिस्टर और पोटेंशियोमीटर
180	85	बर्फेड आक्साइड एचेंट	सेमी कंडक्टर डिवाइस एलईडी/एलइडी डिस्प्ले,
181	39	कंडेक्टिव सिल्वर एपोकसी और हार्डनर	माउंटिड पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, हाइब्रिड माइक्रो सर्किट
182	39	नोरिल; नाइलोन	एलईडी/एलइडी डिस्प्ले, स्विच, पॉवर एंटी कनेक्टर
183	39	पोली एसेटॉल	एलईडी/एलइडी डिस्प्ले, स्विच
184	39	एचडीपीई; एलडीपीई; पोलीप्रापीलीन	एलईडी/एलइडी डिस्प्ले
185	75, 85	स्टेमपीन	इलेक्ट्रान गन, इलेक्ट्रान गन के पुर्जे, इलेक्ट्रानिक वाल्व और टयूब
186	39	सिलिकॉन ऑयल	केपीसिटर, रेजिस्टर, इलेक्ट्रानिक केपीसीटर ग्रेड मेटेलाइज्ड प्लास्टिक फिल्म/प्लास्टिक फिल्म केपीसीटर
187	27	माइक्रो क्रिस्टलाइन वेक्स	प्लास्टिक फिल्म केपीसीटर
188	72	कोटेड/अनकोटेड सीआरसीए/माइल्ड स्टेनलैस स्टील शीट/स्ट्रिप/कॉयल	स्विच, लीड फ्रेम
189	69, 73	कनवेइंग ट्रे/सुपर रिफ्रेक्ट्री/पुशर टाइल/सेरेमिक सैगर; ग्राइडिंग स्टील बाल (हार्डनेस 58-60%, कार्बन कम से कम 0.15%, क्रोमियम 1-1.2%); स्टील बाल	साफ्ट फेराइट पुर्जे/प्री- कलसाइंड फेराइट पाऊडर (स्प्रे ड्राई), केपीसीटर, रेजिस्टर
190	70, 74, 85, 69	सिल्वर कॉपर एलाय वायर; 40 मि मि की लंबाई की की ग्लास टयूब जिसका बाहरी डायामीटर 4 मि मि से 6 मि मि तक का हो; ब्रास फ्यूज केप; पीपीटीसी चिप;	ग्लास काट्रेज फ्यूज/सेरेमिक टयूब फ्यूज/पीपीटीसी

		सेरेमिक ट्यूब	रिसिटेबिल फ्यूज
191	28, 29, 38	फर्निस के लिए सेलिकॉन कार्बाइड रोलर; पोलीएथिलिन गलाइकोल; जूकोप्लास्ट; पोली एमोनियम साइट्रेट; आक्टानॉल; कॉपर आक्साइड	साफ्ट फेराइट पुर्ज/प्रि-कलसाइड फेराइट पाऊडर (स्प्रे ड्राई)
192	68	ग्राइडिंग व्हील (मेटल बांड, रेजिन बांड, डाइमंड व्हील, कांस्ट्रेशन 50-100%, ग्रीट डी 15- डी 30-400 मैश)/स्लाइसिंग व्हील	साफ्ट फेराइट पुर्ज/प्रि-कलसाइड फेराइट पाऊडर (स्प्रे ड्राई), सेमी कंडक्टर डिवाइस
193	25, 28, 40, 69, 73, 85	10000 आरपीएम से अधिक की हाई स्पीड स्पिन्दल; सिलिकन कार्बाइड की होलो हीटिंग रॉड; हीटिंग कॉयल (1375 डिग्री सेंटीग्रेड के योग्य 1 एमएम डाया की कन्थल वायर की बनी हुई); कोबाल्ट आक्साइड (99 % शुद्ध); कन्वेइंग ट्रे (335 x 340 x 30 एमएम अलुमिना/कुमुलाइट); सेटिंग बेट (320 x 320 x 15 एमएम अलुमिना/कुमुलाइट); अलुमिना सेंडविच सिलिकन कार्बाइड प्लेट (340 x 170 x 15 एमएम अलुमिना/कुमुलाइट); मेगनेशियम आक्साइड; कुप्रिक आक्साइड; मीराफलो - ए (पोली कार्बन एसिड); क्लोरो पोलीएथलीन (सीपीई); टेम्पेचर मेजरिंग रिंग	फेराइट
194	69, 85	पीजो सेरेमिक फोरमुलेटिड मेटिरियल/पाऊडर; पीजोसेरेमिक डिस्क/माउंटिड पीजो इलेक्ट्रिक प्लेट; परमाअलाय का डायाफ्राम; परमाअलाय के वेट; टर्मिनल पिन; योक	बजर/सायरन/रिनार
195	73	निडल और स्पिंग	प्रिन्ट हैड
196	72, 85	टी - योक	लाउडस्पीकर
197	28, 39	एस्टलीन ब्लैक कार्बन/अन्य कार्बन और कार्बन पाऊडर; पीटीएफई पाऊडर का घोल	रेजिस्टर और पोटेंटिओमीटर
198	39, 74, 85	फारमर, बेसिस, बोबिन्स, ब्रेकेट्स; सीपी वायर; पीबीटी; फेनोल रेसिन मॉलडिंग पाऊडर; लेमिनेश/ईआई सीलिकॉन स्टील स्ट्रिप	ट्रांसफोरमर
199	39	पोलीब्यूटीलीन टेशफलेट	कोनेक्टर
200	29	अमोनियम एडिपेट; एसिलिक एसिड; पी नाइट्रो बेनजाइक एसिड	इलैक्ट्रोलाइटिक केपीसीटर
201	71	पेलीडियम कॉपर कान्टेक्ट टेप	रिले
202	34, 72	पोलीवेक्स; टिन कोटेड सीआरसीए शीट्स	टूनर
203	85	रिमोट कंट्रोल के पुर्जे	रिमोट कंट्रोल
204	85	डिफ्यूशन एलीमेंट	सेमीकंडक्टर डिवाइस
205	71	सिल्वर कॉपर अलाय वायर 0.25 एमएम	जी डी ट्यूब के लिए धातु से सेरेमिक के ब्रेजींग रिंग
206	38, 39, 40, 68, 74, 85	सिरामिक डिस्क सिंगल लायर; पिन, वायर, एक्सियल लेड फिनिश; शोल्डर/शोल्डर पेस्ट/शोल्डर विद पेस्ट/शोल्डर फ्लैक्स; वायर लीड्स; आइलेट फिनिश; आयलेट फिशिंग कोलेक्ट; मार्किंग इंक; इपोक्सी	ईएमआई/आरएफआई फिल्टर

		रेजिन/स्टाइकास्ट; केसियर टेप/कवर टेप/टैपिंग मेटीरियल/सिलींग टेप/प्लास्टिक रील्स	
207	34	टर्मीनेशन पेस्ट	केपीसीटर, ईएमआई, आरएफआई फिल्टर
208	39	फिनोलिक रेसिन्स; एपोक्सी फिनोलिक रेसिन्स; सिलिकॉन एडेसिव एजेंट	केपीसीटर, रेजिस्टर
209	73	राइबेड्स	पोटेन्टीओमीटर
210	69,75,85	कैथोड्स के पुर्जे	इलैक्ट्रान गन के लिए कैथोड
211	72	साफ्ट मैग्नेटिक आयरन स्ट्रिप्स	रिले
212	79	जिक मेगनेट	साफ्ट फेराइट
213	39	पोलीप्रोपेलीन ग्रेनुल्स	केपेस्टर
214	38	कैटालीस्ट	रेजिस्टर
215	74	ब्रोनज पाऊडर	रेजिस्टर
216	38	बेनटोन	रेजिस्टर
217	25	क्वार्टर्स पाऊडर	रेजिस्टर
218	32	पिंगमेन्ट्स	केपीस्टर/ रेजिस्टर
219	28	मेगनिशियम एल्युमिनियम सिलिकेट	रेजिस्टर
220	59	फैब्रिक कोटिड विद रबर; वैक्स इमलशन, बासोप्लास्ट	लाउडस्पीकर, पेपर कॉन/स्पाइडर/लाउडस्पीकर के डस्ट केप
221	39,40,84	पोलीएसीटाल्स, एक्रीलोनाइटराइन बुटाडीन स्टाइरीन (एबीएस) कोपोलीमर्स, पोलीस्टाइरीन; 150मी.मी. तक की रबर की बेल्ट/ रिंग; एस्टल प्लास्टिक का पाऊडर/दाना; केपस्टन साफ्ट, सिन्टर्ड बुश, रबर की बेल्ट	सीडी/डीवीडी मेकेनिसल, लाउडस्पीकर
222	28,39,40,70	पालिस्टर लेटेक्स; ग्लास कपड़े की टेप, एक्री इमलशन; कोबाल्ट ब्लू	कैथोड रे ट्यूब
223	69,72,75,85	.8 मी.मी. डायामेटर से कम की स्टेनलेस स्टील की तार; .6 मी.मी. मोटाई से कम की स्टेनलेस स्टील की पट्टी; सेरेमिक बेस ; आइलेट ; सिलिव ;केप कील	इलैक्ट्रान गन के पुर्जे

(ii) सूची ग का लोप किया जायेगा ।

2. यह अधिसूचना 9 जनवरी, 2004 से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 349/1/2004-टीआरयू]

जी. एस. कार्की, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3, उपखंड (i) , में अधिसूचना सं० 25/99-सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1999 [सा० का० नि० 161 (अ) , तारीख 28 फरवरी, 1999] द्वारा प्रकाशित हुई थी और उसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 28/2003-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003 [सा० का० नि० 163 (अ) तारीख 1 मार्च, 2003] द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2004

No. 9/2004-CUSTOMS

G.S.R. 22(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 25/99-Customs, dated the 28th February, 1999, namely:-

In the said notification,-

(A) in the opening paragraph,-

for the portion beginning with the words "amount calculated at the rate of -," and ending with the words and letter "specified in List C:", the following shall be substituted, namely:-
"amount calculated at the rate of,-

- (a) Nil in the case of the imported goods specified in List A; and
(b) 5% *ad valorem* in the case the imported goods specified in List B:";

(B) in the TABLE,-

- (i) In LIST A, after S. No. 168 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
169.	76	Aluminium clad entry foil	Printed circuit board
170.	28	Phosphoric acid (MOS/CMOS, electronic grade); Hydrogen peroxide (MOS/CMOS, electronic grade)	Semi-conductor devices, LED/LED displays
171.	74, 76, 80	Aluminium wire with silicon or magnesium with impurity upto 2%; Bonding wire (aluminum, gold and copper based)	Semi-conductor devices, LED/LED displays, Hybrid micro-circuits
172.	80	Tin-silver antimony alloy in any form	Semi-conductor devices, LED/LED displays
173.	28	Titanium dioxide of minimum purity 99%	Potentiometers, ceramic capacitors
174.	28, 29, 35, 72, 81	Barium bromide; Sodium aluminate ; Barium aluminate; Methoklone; Methyl chloride; Dichloro methane; Titanium metal powder (99% purity); Cesium glass powder; Barium glass powder;	Gas discharge tubes
		Argon-Neon mixed gas (99% purity); Argon-hydrogen mixed gas (99% purity); Copper Plated Steel wire (tin plated) with dia upto 1.5 mm; Adhesive paste	
175.	39	Tedlar film	Printed circuit boards, semiconductor devices, multi layer laminates, glass epoxy copper clad laminates

176.	39	Polyester film	Magnetic tape, plastic film capacitors
177.	29, 39	MEK (Methyl Ethyl Ketone); Polyurethane /Urethane elastomer; Cyclohexanone	Magnetic tape
178.	39	Polyolefin heat shrinkable tubes/ sleeves	Deflection components
179.	27, 39, 75, 85	Kilopoise Grease; Polyester mesh; Nickel alloys resistance wires and strips in bare or enameled form;	Resistors and Potentiometers
180.	85	Buffered Oxide Echants	Semi-conductor devices, LED/LED displays
181.	39	Conductive silver epoxy and hardener	Mounted Piezoelectric crystals, Hybrid microcircuits
182.	39	Noryl; Nylon	LED/LED Displays, switches, power entry connectors
183.	39	Polyacetal	LED/LED displays, switches
184.	39	HDPE; LDPE; Poly propylene	LED/LED displays
185.	75, 85	Stem pin	Electron gun, electronic valves and tubes, parts of electron gun
186.	39	Silicon oil	Capacitors, resistors, electronic capacitor grade metallised plastic film/ plastic film capacitors
187.	27	Microcrystalline wax	Plastic film capacitors
188.	72	Coated/ uncoated CRCA/ Mild stainless steel in the form of sheets/ strips/ coils	Switches, lead frames
189.	69, 73	Conveying trays/super refractories/ pusher tiles/ ceramic saggers; Grinding steel balls (hardness 58-60%, carbon minimum 0.15%, chromium 1-1.2%); Steel balls	Soft ferrite parts/ pre-calcined ferrite powder (spray dried), capacitors, resistors
190.	69, 70, 74, 85	Silver copper alloy wires; Glass tubes of sizes between 4mm and 6mm outside diameter, in cut lengths upto 40mm; Brass fuse caps; PPTC chips; Ceramic tubes	Glass cartridges fuses/ ceramic tube fuses/ PPTC resettable fuses
191.	28, 29, 38	Silicon carbide roller for furnace; polyethylene glycol;	Soft ferrites parts/ pre-calcinated ferrite powder (spray dried)
		Zucoplast; Polyammonium citrate; Octanol; Copper oxide	
192.	68	Grinding wheels (metal bond, resin bond, diamond wheel, Conc 50-100%, grit D15-D30-400 mesh)/slicing wheels	Soft ferrites parts/ pre-calcined ferrite powder (spray dried), semiconductor devices
193.	25, 28, 40, 69, 73, 85	High speed spindles of more than 10,000 RPM; silicon carbide hollow heating rods, with or without perforations; Heating coils (made of kanthal wire suitable for 1375° C dia 1 mm);	Ferrites

		Cobalt oxide (99% pure); Conveying trays (335 X 340 X 30 mm Alumina / cumulite); Setting batts (320X320X15 mm alumina / cumulite); Alumina sandwiched silicon carbide plate (340X170X15 mm alumina / cumulite); Magnesium oxide; Cupric oxide; Miraflow-A (polycarbon acid); Chloropolyethylene (CPE); Temperature measuring rings	
194.	69, 85	Piezo ceramic formulated material / powder; Piezo ceramic discs/ mounted piezo electric plates; diaphragm of permalloy; weight of permalloy; terminal pins; yoke	Buzzers/ sirens /ringers
195.	73	Needle and springs	Print head
196.	72, 85	T-yoke	Loudspeakers
197.	28, 39	Acetylene black carbon/ other carbon and carbon powders; PTFE powder solutions	Resistors and potentiometers
198.	39, 74, 85	Former, bases, bobbins, brackets; CP wires; P.B.T.; Phenol resin moulding powder; Lamination/ El silicon steel strips	Transformers
199.	39	Polybutylene terephthalate	Connectors
200.	29	Ammonium adipate; Acelaic acid; P.Nitro benzoic acid	Electrolytic capacitors
201.	71	Pelladium copper contact tapes	Relays
202.	34, 72	Polywax; Tin coated CRCA sheets	Tuners
203.	85	Parts of remote control	Remote control
204.	85	Diffusion elements	Semiconductor devices
205.	71	Silver copper alloy wire in dia upto 0.25 mm	Metal to ceramic brazing rings for GD tubes
206.	38, 39, 40, 68, 74, 85	Ceramic disc single layer; pin; washer; axial lead finish; solder/ solder paste/ solder with paste/ solder flux; solder with flux; wire leads; eyelet finish; eyelet fixing collect;	EMI/RFI filters
		marking ink; epoxy resin/ stycast; carrier tape/ cover tape/ taping material/ sealing tape/ plastic reels	
207.	34	Termination paste	Capacitors, EMI/RFI filters
208.	39	Phenolic resins; epoxy phenolic resins; silicon adhesive agent	Capacitors, resistors
209.	73	Rivets	Potentiometers
210.	69, 75, 85	Parts of cathodes	Cathodes for electron guns
211.	72	Soft magnetic iron strips	Relays
212.	79	Zinc manganate	Soft ferrites
213.	39	Polypropylene granules	Capacitors
214.	38	Catalysts	Resistors
215.	74	Bronze powder	Resistors
216.	38	Bentone	Resistors
217.	25	Quartz powder	Resistors

218.	32	Pigments	Capacitors, resistors
219.	28	Magnesium aluminum silicate	Resistors
220.	59	Fabric coated with rubber; Wax emulsion; basoplast	Loudspeakers, paper cones/ spiders/ dust caps for loudspeakers
221.	39, 40, 84	Polyacetals, Acrylonitrile-Butadiene- Styrene (ABS) copolymers; polystyrene; Rubber belts /ring upto 150 mm; Acetal plastic powder/ resin /granule; Capstan shafts, sintered bush, rubber belts	CD /DVD mechanism, loudspeakers
222.	28, 39, 40, 70	Polyester latex; glass cloth tape; acry emulsion; cobalt blue	Cathode ray tubes
223.	69, 72, 75, 85	Stainless steel wire of dia below 0.8 mm; Stainless steel strips of thickness below 0.6mm; ceramic bases; eyelets; sleeves; caps; nails	Parts of electron guns"

(ii) LIST C and the entries relating there to shall be omitted.

2. This notification shall come into force on the 9th day of January, 2004.

[F. No. 349/1/2004-TRU]

G.S. KARKI, Under Secy.

Note: The principal notification No.25/99-Customs dated the dated the 28th February, 1999, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide G.S.R.161 (E), dated the 28th February, 1999 and was last amended by notification No.28/2003-Customs, dated the 1st March, 2003 [G.S.R. 163 (E), dated the 1st March, 2003].

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2004

सं. 10/2004-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 23(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, निदेशित करती है कि नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचनाओं में से प्रत्येक को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट रीति से, यथास्थिति, संशोधित या और संशोधित किया जाएगा, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	26/95 - सीमाशुल्क, तारीख 16 मार्च, 1995	उक्त अधिसूचना की सारणी में,- (क) क्रम सं० I में,- (i) मद सं० 11 के सामने, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर "मूल्य का 15 प्रतिशत" प्रविष्टि रखी जाएगी;

[illegible]

[illegible]

		<p>(v) मद सं० 8 के सामने, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर “मूल्य का 10 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी;</p> <p>(vi) मद सं० 10 के सामने, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर “मूल्य का 15 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी;</p>
2.	28/95- सीमाशुल्क, तारीख 16 मार्च, 1995	<p>उक्त अधिसूचना की सारणी में,-</p> <p>(i) मद सं० 7 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर “मूल्य का 10 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी;</p> <p>(ii) मद सं० 8 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर “मूल्य का 14 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी;</p> <p>(iii) मद सं० 9 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर “मूल्य का 14 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी;</p> <p>(iv) मद सं० 10 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर “मूल्य का 14 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी;</p> <p>(v) मद सं० 12 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर “मूल्य का 10 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी;</p> <p>(vi) मद सं० 13 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर “मूल्य का 15 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी;</p> <p>(vii) मद सं० 14 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर “मूल्य का 10 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी;</p> <p>(viii) मद सं० 15 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर “मूल्य का 10 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी;</p> <p>(ix) मद सं० 16 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर “मूल्य का 10 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी;</p> <p>(x) मद सं० 17 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर “मूल्य का 10 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी;</p> <p>(xi) मद सं० 18 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर “मूल्य का 10 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी;</p> <p>(xii) मद सं० 19 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर “मूल्य का 10 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी;</p>

2. यह अधिसूचना 9 जनवरी, 2004 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 349/3/2004-टीआरयू]

जी. एस. कार्की, अवर सचिव

टिप्पण :

1. अधिसूचना सं. 26/95 सीमाशुल्क तारीख 16 मार्च, 1995 भारत के राजपत्र में सा०का०नि० सं० 155(अ) तारीख 16 मार्च, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका अंतिम बार अधिसूचना सं. 179/2003 सीमाशुल्क तारीख 31 दिसम्बर, 2003 [सा.का.नि. सं.974 (अ) तारीख 31 दिसम्बर, 2003] द्वारा संशोधन किया गया था ।
2. अधिसूचना सं. 28/95 सीमाशुल्क तारीख 16 मार्च, 1995 भारत के राजपत्र में सा०का०नि० सं० 157(अ) तारीख 16 मार्च, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका अंतिम बार अधिसूचना सं. 28/2003 सीमाशुल्क तारीख 1 मार्च, 2003 [सा.का.नि. सं.163 (अ) तारीख 1 मार्च, 2003] द्वारा संशोधन किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2004

No. 10/2004-CUSTOMS

G.S.R. 23(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below, shall be further amended, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

S.No.	Notification No. and date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	26/95- Customs, dated the 16 th March, 1995	<p>In the said notification, in the Table,-</p> <p>(A) in S. No. I,-</p> <p>(i) against item No. 11, for the entry in column (3), the entry "15% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(ii) against item No. 12, for the entry in column (3), the entry "15% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(iii) against item No. 13, for the entry in column (3), the entry "5% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(iv) against item No. 14, for the entry in column (3), the entry "15% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(v) against item No. 15, for the entry in column (3), the entry "15% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(vi) against item No. 16, for the entry in column (3), the entry "15% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(vii) against item No. 17, for the entry in column (3), the entry "15% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(viii) against item No. 18, for the entry in column (3), the entry "15% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(ix) against item No. 19, for the entry in column (3), the entry "15% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(x) against item No. 20, for the entry in column (3), the entry "15% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(xi) against item No. 21, for the entry in column (3), the entry "10% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(xii) against item No. 22, for the entry in column (3), the entry "15% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(xiii) against item No. 23, for the entry in column (3), the entry "15% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(xiv) against item No. 24, for the entry in column (3), the entry "15% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(xv) against item No. 25, for the entry in column (3), the entry "15% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(xvi) against item No. 32, for the entry in column (3), the entry "15% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(xvii) against item No. 37, for the entry in column (3), the entry "15% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(xviii) against item No. 38, for the entry in column (3), the entry "10% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(xix) against item No. 41, for the entry in column (3), the entry "15% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(xx) against item No. 42, for the entry in column (3), the entry "15% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(xxi) against item No. 43, for the entry in column (3), the entry "15% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p>

		<p>(xxii) against item No. 44, for the entry in column (3), the entry "15% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(xxiii) against item No. 45, for the entry in column (3), the entry "15% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(xxiv) against item No. 46, for the entry in column (3), the entry "20% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(xxv) against item No. 47, for the entry in column (3), the entry "15% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(xxvi) against item No. 49, for the entry in column (3), the entry "20% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(xxvii) against item No. 50, for the entry in column (3), the entry "20% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(xxviii) against item No. 51, for the entry in column (3), the entry "20% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(xxix) against item No. 52, for the entry in column (3), the entry "20% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(xxx) against item No. 53, for the entry in column (3), the entry "20% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(xxxi) against item No. 54, for the entry in column (3), the entry "20% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(xxxii) against item No. 55, for the entry in column (3), the entry "15% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(xxxiii) against item No. 56, for the entry in column (3), the entry "10% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(B) in S. No. II,-</p> <p>(i) against item No. 2, for the entry in column (3), the entry "10% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(ii) against item No. 3, for the entry in column (3), the entry "10% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(iii) against item No. 4, for the entry in column (3), the entry "10% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(iv) against item No. 5, for the entry in column (3), the entry "10% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(v) against item No. 8, for the entry in column (3), the entry "10% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(vi) against item No. 10, for the entry in column (3), the entry "15% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p>
2.	28/95- Customs, dated the 16 th March, 1995	<p>In the said notification, in the Table,-</p> <p>(i) against S.No.7, for the entry in column (4), the entry "10% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(ii) against S.No.8, for the entry in column (4), the entry "14% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(iii) against S.No.9, for the entry in column (4), the entry "14% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(iv) against S.No.10, for the entry in column (4), the entry "14% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(v) against S.No.12, for the entry in column (4), the entry "10% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(vi) against S.No.13, for the entry in column (4), the entry "15% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(vii) against S.No.14, for the entry in column (4), the entry "10% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(viii) against S.No.15, for the entry in column (4), the entry "10% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p> <p>(ix) against S.No.16, for the entry in column (4), the entry "10% <i>ad valorem</i>" shall be substituted;</p>

		(x) against S.No.17, for the entry in column (4), the entry “10% <i>ad valorem</i> ” shall be substituted;
		(xi) against S.No.18, for the entry in column (4), the entry “10% <i>ad valorem</i> ” shall be substituted;
		(xii) against S.No.19, for the entry in column (4), the entry “10% <i>ad valorem</i> ” shall be substituted;

2. This notification shall come into force on the 9th day of January, 2004.

[F. No. 349/3/2004-TRU]

.G.S. KARKI, Under Secy.

Note :

- (i) The principal notification No. 26/95-Customs dated the 16th March, 1995, was published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 16th March, 1995, *vide* G.S.R. 155(E) dated the 16th March, 1995 and was last amended by notification No. 179/2003-Customs dated the 31st December, 2003 [G.S.R. 974(E) dated the 31st December, 2003];
- (ii) The principal notification No. 28/95-Customs dated the 16th March, 1995, was published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 16th March, 1995, *vide* G.S.R. 157(E) dated the 16th March, 1995 and was last amended by notification No. 28/2003-Customs dated the 1st March, 2003 [G.S.R. 163(E) dated the 1st March, 2003].

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2004

सं. 11/2004-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 24(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के टैरिफ मद 98030000 के तहत आने वाले एक लैपटॉप कम्प्यूटर (नोट बुक कम्प्यूटर) को 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के यात्री (कर्मिंदल के सदस्य को छोड़कर) द्वारा भारत में आयातित करने पर, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के तहत इस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमा शुल्क से छूट प्रदान करती है।

2. यह अधिसूचना 9 जनवरी, 2004 को और से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 520/01/2004-सीमाशुल्क-VI]

डी.एस. गर्ब्याल अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2004

No. 11/2004-CUSTOMS

G.S.R. 24(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts one laptop computer (notebook computer) falling under tariff item 98030000 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) when imported into India by a passenger of the age of 18 years or above (other than member of crew) from whole of the duty of Customs leviable thereon under the First Schedule to the said Customs Tariff Act.

2. This notification shall come into force on and from the 9th day of January 2004.

[F. No. 520/01/2004-Cus. VI]

D.S. GARPYAL, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2004

सं. 12/2004-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 25(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना सं. 49/96 सीमा शुल्क में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में कॉलम (2) में क्रम सं. 1 के सामने "क्रम सं. 140" शब्दों और अंकों के स्थान पर "क्रम सं. 132, कॉलम (3) की मद (1) में (सिनेमेटोग्राफिक फिल्म जो उद्भासित की गई हो लेकिन विकसित नहीं की गई हो) और क्रम सं. 140" अक्षर, अंक, शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

2. यह अधिसूचना 9 जनवरी, 2004 को और से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 520/01/2004-सीमाशुल्क-VI]

डी.एस. गर्ब्याल, अवर सचिव

टिप्पणी:— मूल अधिसूचना संख्या 49/96-सीमा शुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 1996 भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 301(अ) दिनांक 23 जुलाई, 1996 के तहत प्रकाशित की गई थी तथा इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 24/2002-सीमा शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2002 [सा.का.नि. 121 (अ), दिनांक 1 मार्च, 2002] के तहत संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2004

No. 12/2004-CUSTOMS

G.S.R. 25(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 49/96-Customs, dated the 23rd July, 1996 , namely:-

In the said notification, in the TABLE, against S.No.1, in column (2) , for the letters and figures "S.Nos.140", the letters, figures, words and brackets "S.No.132, in column (3) at item No. (1) (Cinematograph films, exposed but not developed) and S.Nos.140", shall be substituted.

2. This notification shall come into force on and from the 9th day of January 2004.

[F. No. 520/1/2004-Cus. VI]

D.S. GARBYAL, Under Secy.

Note:—The principal notification No.49/96-Customs, dated the 23rd July, 1996 was published in the Gazette of India vide G.S.R 301 (E), dated the 23rd July, 1996 and was last amended vide notification No. 24/2002-Customs, dated the 1st of March, 2002[G.S.R / 21 (E) , dated the 1st of March, 2002]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2004

सं. 13/2004-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 26(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना सं. 137/90-सीमा शुल्क में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

- (क) प्रारम्भिक पैराग्राफ में, "सारणी के कॉलम (2) में" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के लिए "सारणी-I और सारणी-II, प्रत्येक के कॉलम (2) में " शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जायेंगे।;
- (ख) " उतने ही सीमा शुल्क से " शब्दों से आरंभ होने वाले और "निम्नलिखित शर्तों अर्थात् :- "शब्दों से समाप्त होने वाले भाग में "उक्त प्रथम अनुसूची के अंतर्गत उन पर उद्ग्रहणीय उतने सीमा शुल्क से जितना कि मूल्यानुसार 30% की दर पर परिकलित राशि से अधिक है", शब्दों एवं अंकों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- "इसके साथ संलग्न सारणी-I के कॉलम (2) में

विनिर्दिष्ट माल के संबंध में उक्त प्रथम अनुसूची के अंतर्गत उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा शुल्क से और उक्त प्रथम अनुसूची के अंतर्गत उन पर उद्ग्रहणीय उतने सीमा शुल्क से जितना कि इसके साथ संलग्न सारणी-II के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में 15% मुल्यानुसार की दर पर परिकलित राशि से अधिक है।";

(ग) इसके साथ संलग्न सारणी के लिए निम्नलिखित सारणियां प्रतिस्थापित की जायेगी :-

सारणी-I

क्रम सं.	माल
1.	वीडियो कैसेट रिकार्डर या वीडियो कैसेट प्लेयर या वीडियो टेलीविजन रिसीवर या वीडियो कैसेट डिस्क प्लेयर
2.	वाशिंग मशीन ।
3.	विद्युत/द्रविकृत पेट्रोलियम गैस कुकिंग रेंज
4.	पर्सनल कम्प्यूटर(डेस्कटाप कम्प्यूटर)
5.	लेपटॉप कम्प्यूटर (नोटबुक कम्प्यूटर)
6.	300 लीटर तक अथवा उसके समतुल्य क्षमता वाले घरेलू रैफरीजरेटर ।

सारणी-2

क्रम सं.	माल
1.	रंगीन टेलीविजन/मोनोक्रोम टेलीविजन ।
2.	डिजिटल वीडियो डिस्क प्लेयर
3.	वीडियो होम थियेटर सिस्टम ।
4.	डिश वाशर ।
5.	म्यूजिक सिस्टम ।
6.	वातानुकूलक ।
7.	300 लीटर अथवा इसके समतुल्य से अधिक क्षमता वाले घरेलू रैफरीजरेटर्स
8.	डीप फ्रीजर ।
9.	माइक्रोवेव ओवन ।
10.	वीडियो कैमरा या ऐसे वीडियो कैमरा का संयोजन जिनमें निम्नलिखित एक या अधिक माल हो, अर्थात् :- (क) टेलीविजन रिसीवर ; (ख) साउंड रिकार्डिंग या रिप्रोड्यूसिंग उपस्कर, (ग) वीडियो रिप्रोड्यूसिंग उपस्कर ।
11.	शब्द प्रसंस्करण मशीन
12.	फैक्स मशीन
13.	पोर्टेबल फोटोकॉपिंग मशीन
14.	जलयान
15.	वायुयान
16.	35 मि.मी.और अधिक की चलचित्र फिल्म ।
17.	स्वर्ण या रजत, किसी भी रूप में, जेवरात को छोड़कर ।"

2. यह अधिसूचना 9 जनवरी, 2004 को और से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 520/01/2004-सीमाशुल्क-VI]

डी.एस. गब्याल, अवर सचिव

टिप्पणी:- मूल अधिसूचना सं. 137/90-सीमा शुल्क, दिनांक 20 मार्च 1990 भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 367(अ), दिनांक 20 मार्च 1990 के तहत प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार इसका संशोधन अधिसूचना सं. 24/2002-सीमा शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2002(सा.का.नि.121(अ), दिनांक 1मार्च,2002) द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2004

No. 13/2004-CUSTOMS

G.S.R. 26(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 137/90-Customs, dated the 20th March, 1990 , namely:-

In the said notification,-

(a). in the opening paragraph , for the words brackets and figures “ in column (2) of the Table” the words ,brackets, figure and letter “in column (2) of the each of TABLE-I and TABLE-II ” shall be substituted.;

(b). in the portion beginning with the words “ from so much of the duty of Customs ” and ending with the words “ following conditions, namely:-”, for the words and figures “ from so much of the duty of Customs leviable thereon under the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of 30% ad valorem”, the following shall be substituted , namely:-

“ from the whole of the duty of Customs leviable thereon under the said First Schedule in respect of goods specified in column (2) of TABLE-I annexed hereto and from so much of the duty of Customs leviable thereon under the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of 15% ad valorem in respect of goods specified in column (2) of TABLE-II annexed hereto.”;

(c) for TABLE annexed therewith, the following TABLES shall be substituted ,namely:-

“TABLE - I

S. No.	Goods
(1)	(2)
1	Video Cassette Recorder or Video Cassette Player or Video Television Receiver or Video Cassette Disk Player.
2	Washing Machine.
3	Electrical or Liquefied Petroleum Gas Cooking Range
4	Personal Computer(Desk Top Computer)
5	Laptop Computer(Notebook Computer)
6	Domestic refrigerators of capacity up to 300 litres or equivalent

TABLE - II

S. No.	Goods
(1)	(2)
1	Colour Television or Monochrome Television.
2	Digital Video Disc Player.
3	Video Home Theatre System.
4	Dish Washer.
5	Music System.
6	Air-Coditioner.
7	Domestic refrigerators of capacity above 300 litres or its equivalent.
8	Deep Freezer .
9	Microwave Oven.
10	Video camera or the combination of any such video camera with one or more of the following goods, namely:- (a)Television Receiver; (b)Sound recording or reproducing apparatus; (c)Video reproducing apparatus.
11	Word Processing Machine.
12	Fax Machine.
13	Portable Photocopying Machine.
14	Vessel.
15	Aircraft.
16	Cinematographic films of 35 mm and above.
17	Gold or Silver, in any form, other than ornaments.”

2. This notification shall come into force on and from the 9th day of January 2004.

[F. No. 520/01/2004-Cus. VI]

D.S. GARBYAL, Under Secy.

Note:— The principal notification No.137/90-Customs, dated the 20th March, 1990 was published in the Gazette of India vide G.S.R 367(E), dated the 20th March, 1990 and was last amended vide notification No. 24/2002-Customs, dated the 1st March, 2002 [G.S.R.121(E), dated the 1st March, 2002].

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2004

सं. 14/2004-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 27(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष 9801 के अंतर्गत आने वाली जल संभरण परियोजना को उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क, जो उक्त पहली अनुसूची के अंतर्गत शुल्क्य है और अतिरिक्त सीमाशुल्क जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत शुल्क्य है, से छूट देती है ।

स्पष्टीकरण: जल संभरण परियोजना में जल के डीसेलेनेशन, डीमीनरलाइजेशन, या शुद्धिकरण या जल पर इसी तरह के अन्य प्रक्रिया या प्रक्रियाओं, जिससे पानी को कृषि या औद्योगिक उपयोग के लिए उपर्युक्त बनाया जा सके, के लिए संयंत्र सम्मिलित हैं ।

2. यह अधिसूचना 9 जनवरी, 2004 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 354/159/2002-टीआरयू]

जी. एस. कार्की, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2004

No. 14/2004-CUSTOMS

G.S.R. 27(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts Water Supply Projects, falling under heading 9801 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), from whole of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule, and from whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act.

Explanation.— Water Supply Project includes a plant for desalination, demineralization or purification of water or for carrying out any similar process or processes intended to make the water fit for agricultural or industrial use.

2. This notification shall come into force on the 9th day of January, 2004.

[F. No. 354/159/2002-TRU]

G.S. KARKI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2004

सं. 15/2004-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 28(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की की पहली अनुसूची के शीर्ष 9801 की उपमद (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, देश के आर्थिक विकास का ध्यान रखते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 42/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में क्रम सं० 26 और उससे संबद्ध प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जायेंगी, अर्थात:-

“26क जल संभरण परियोजना

स्पष्टीकरण: जल संभरण परियोजना में जल के डीसेलेनेशन, डीमीनरलाइजेशन, या शुद्धिकरण या जल पर इसी तरह के अन्य प्रक्रिया या प्रक्रियाओं, जिससे पानी को कृषि या औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त बनाया जा सके, के लिए संयंत्र सम्मिलित हैं।”।

2. यह अधिसूचना 9 जनवरी, 2004 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/159/2002-टीआरयू]

जी. एस. कार्की, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना 42/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा०का० नि० सं० 294 (अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं० 28/2003-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003, सा०का० नि० 163 (अ) तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2004

No. 15/2004-CUSTOMS

G.S.R. 28(E).— In exercise of the powers conferred by sub-item (6) of heading 9801 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, having regard to the economic development of the country, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 42/96-Customs, dated the 23rd July, 1996, namely:-

In the said notification, after serial number 26 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“26A. Water Supply Projects

Explanation.- Water Supply Project includes a plant for desalination, demineralization or purification of water or for carrying out any similar process or processes intended to make the water fit for agricultural or industrial use.”.

2. This notification shall come into force on the 9th day of January, 2004.

[F.No. 354/159/2002-TRU]

G.S. KARKI, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide G.S.R. 294 (E), dated the 23rd July, 1996 and was last amended by notification No. 28/2003-Customs, dated the 1st March, 2003 [G.S.R. 163 (E) dated the 1st March, 2003]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2004

सं. 16/2004-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 29(अ).— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रोजेक्ट आयात विनियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्

1.(i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम प्रोजेक्ट आयात (संशोधन) विनियम, 2004 है।

(ii) ये 9 जनवरी, 2004 से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रोजेक्ट आयात विनियम 1986 में, सारणी में क्रम सं० 3ख तथा संबद्ध प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं०	संयंत्र या परियोजना का नाम	प्रायोजक अधिकारी
“ 3क.	जल संभरण परियोजना	परियोजना के स्थानीय जिले का कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/ डिप्टी कमीशनर ।

”।

2. यह अधिसूचना 9 जनवरी, 2004 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/159/2002-टीआरयू]

जी.एस. कार्की, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में सा०का०नि० 580 (अ) तारीख 3 अप्रैल, 1986 द्वारा प्रकाशित किया गया और उसका अंतिम बार संशोधन अधिसूचना 37/2003-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003 (सासा०का०नि० 172 (अ) तारीख 1 मार्च, 2003) किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2004

No. 16/2004-CUSTOMS

G.S.R. 29(E).— In exercise of the powers conferred by section 157 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby make the following regulations further to amend the Project Imports Regulations, 1986, namely:-

1. (i) These regulations may be called the Project Imports (Amendment) Regulations, 2004.
- (ii) They shall come into force on the 9th day of January, 2004.
2. In the Project Import Regulations, 1986, in the Table, after Sr. No.3B and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

TABLE		
Sr. No.	Name of the Plant or Project	Sponsoring Authority
"3C.	Water Supply Projects	Collector/District Magistrate/Deputy Commissioner of the District in which the project is located."

[F. No. 354/159/2002-TRU]

G.S. KARKI, Under Secy.

Note :— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide G.S.R. 580 (E), dated the 3rd April, 1986 and was last amended by notification No. 37/2003-Customs, dated the 1st March, 2003 [G.S.R. 172 (E) dated the 1st March, 2003].

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2004

सं. 5/2004-सी.शु. (गै.टै.)

सा.का.नि. 30(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा असबाब नियमावली, 1998 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (i) इन नियमों को असबाब (संशोधन)नियमावली, 2004 कहा जाए।
- (ii) ये 9 जनवरी, 2004 को और से प्रवृत्त होंगे।
2. असबाब नियमावली, 1998 में,-

(क) नियम 10 में, -

(i) कि नियम को उसके उप-नियम(I) के रूप में पुनः अंकन किया जाए। इस प्रकार पुनः अंकित उप-नियम (I) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"बशर्ते कि इस उप-नियम में यथा विनिर्दिष्ट को छोड़कर किसी पोत के किसी कर्मी सदस्य को उनके व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक उपयोग हेतु चाकलेट, चीज, सौंदर्य प्रसाधन और अन्य छोटी उपहार की वस्तुएं जैसी वस्तुएं जिनका मूल्य छः सौ रुपये से अधिक नहीं हो, को लाने की अनुमति होगी।"

(II) उप-नियम (I) के बाद इस प्रकार पुनः अंकन के बाद, निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) इन नियमों में निहित किसी बात के होने के बावजूद किसी वायुयान के किसी कर्मी सदस्य को विदेश यात्रा से वायुयान द्वारा लौटते समय अपने व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक उपयोग हेतु चाकलेट, चीज, सौंदर्य प्रसाधन और अन्य छोटी उपहार वस्तुएं जैसी उपहार वस्तुएं जिनका मूल्य छः सौ रुपये से अधिक नहीं होगा, को लाने की अनुमति होगी";

(ख) परिशिष्ट ग में, "शुल्क से मुक्त वस्तुएं" शीर्षक के कॉलम के अंतर्गत कॉलम में, "अथवा अनुबंध-II" शब्दों और अंकों के स्थान पर "अनुबंध II अथवा अनुबंध III" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) परिशिष्ट च में, "शुल्क से मुक्त वस्तुएं" शीर्षक के कॉलम के अंतर्गत कॉलम में "सहित" शब्द के बाद "अनुबंध III में सूचीबद्ध वस्तुएं और" शब्द जोड़ जायेंगे;

(घ) "अनुबंध I" में "4 प्रत्येक एक लिटर से अधिक अल्कोहलिक लिकर और वाइन" भाग के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"4. दो लिटर से अधिक अल्कोहलिक लिकर अथवा वाइन"

(ङ) "अनुबंध II" के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"अनुबंध-2"

1. रंगीन टेलीविजन या मोनोक्रोम टेलीविजन ।
2. डिजिटल वीडियो डिस्क प्लेयर
3. वीडियो होम थियेटर सिस्टम ।
4. डिश वाशर ।
5. म्यूजिक सिस्टम ।
6. वातानुकूलक ।
7. 300 लीटर अथवा इसके समकक्ष से अधिक क्षमता वाले घरेलू रैफ्रीजरेटर्स
8. डीप फ्रीजर ।
9. माइक्रोवेव ओवन ।
10. वीडियो कैमरा या ऐसे वीडियो कैमरा का संयोजन जिनमें निम्नलिखित एक या अधिक माल हो, अर्थात् :-

- (क) टेलीविजन रिसीवर ;
 - (ख) साउंड रिकार्डिंग या रिप्रोड्यूसिंग उपस्कर,
 - (ग) वीडियो रिप्रोड्यूसिंग उपस्कर ।
 - 11. शब्द प्रसंस्करण मशीन
 - 12. फैक्स मशीन
 - 13. पोर्टेबल फोटोकॉपिंग मशीन
 - 14. जलयान
 - 15. वायुयान
 - 16. 35 मि.मी.और अधिक की चलचित्र फिल्म ।
 - 17. स्वर्ण या रजत, किसी भी रूप में, जेवरात को छोड़कर ।"
- (च) उपबंध 2 के पश्चात् निम्नलिखित अनुबंध प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामशः

अनुबंध-3

1. वीडियो कैसेट रिकार्डर या वीडियो कैसेट प्लेयर या वीडियो टेलीविजन रिसीवर/वीडियो कैसेट डिस्क प्लेयर ।
2. वाशिंग मशीन ।
3. विद्युत या द्रविकृत पेट्रोलियम गैस कुकिंग रेंज ।
4. पर्सनल कम्प्यूटर(डेस्कटाप कम्प्यूटर) ।
5. लेपटॉप कम्प्यूटर (नोटबुक कम्प्यूटर) ।
6. 300 लीटर तक अथवा इसके समतुल्य की क्षमता वाले घरेलु रैफरीजरेटर ।
3. यह अधिसूचना 9 जनवरी, 2004 से प्रभावी होगी ।"

[फा. सं. 520/01/2004-सीमाशुल्क- VI]

डी.एस. गब्र्याल, अवसर सचिव

टिप्पणी:- मूल नियम अधिसूचना सं. 30/98- सीमा शुल्क (एन.टी), तारीख 2 जून, 1998, सा.का.नि.296(अ) तारीख 2 जून, 1998 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 11/2002 सीमा शुल्क (एन.टी.), तारीख 1 मार्च 2002, सा.का.नि.125(अ) तारीख 1 मार्च, 2002 के द्वारा किए गए थे ।

76GI/2004-12

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2004

No. 5/2004-Customs (N.T.)

G S.R. 30(E).— In exercise of the powers conferred by section 79 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government makes the following rules further to amend the Baggage Rules, 1998, namely :-

1. (i) These rules may be called the Baggage (Amendment) Rules, 2004.
(ii) They shall come into force on and from the 9th day of January, 2004.
2. In the Baggage Rules, 1998 ,—
 - (a) in rule 10, —
 - (i) that rule shall be re-numbered as sub-rule (1) thereof. In sub-rule (1) as so renumbered the following proviso shall be inserted, namely:—

“ Provided that except as specified in this sub-rule, a crew member of a vessel shall be allowed to bring items like chocolates, cheese ,cosmetics and other petty gift items for their personal or family use which shall not exceed the value of rupees six hundred.”
 - (ii) after sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(2) Notwithstanding anything contained in these rules a crew member of an aircraft shall be allowed to bring items gifts like chocolates, cheese, cosmetics and other petty gift items at the time of the returning of the aircraft from foreign journey for their personal or family use which shall not exceed the value of rupees six hundred.”;
 - (b) in Appendix C, in the column under column heading “ Articles allowed free of duty”, for the words and figure “ or Annex.II”, the words and figures “Annexure II or Annexure III” shall be substituted.;
 - (c) in Appendix F, in the column under column heading “ Articles allowed free of duty”, after the word “including” , the words “ the article listed at Annexure III and ” shall be inserted.;
 - (d) in ‘Annex I’, for the portion “ 4.Alcholic liquor and wines in excess of one litre each.”, the following shall be substituted, namely:—

“4. Alcoholic liquor or wines in excess of two litres .”;

(e) for “Annex II” , the following shall be substituted ,namely:-

“Annexure II

1. Colour Television or Monochrome Television.
2. Digital Video Disc Player.
3. Video Home Theatre System.
4. Dish Washer.
5. Music System.
6. Air –Conditioner.
7. Domestic refrigerators of capacity above 300 litres or its equivalent .
8. Deep Freezer.
9. Microwave Oven.
10. Video camera or the combination of any such video camera with one or more of the following goods, namely:-
 - (a) Television Receiver;
 - (b) Sound recording or reproducing apparatus;
 - (c) Video reproducing apparatus.
11. Word Processing Machine.
12. Fax Machine.
13. Portable Photocopying Machine.
14. Vessel.
15. Aircraft.
16. Cinematographic films of 35 mm and above.
17. Gold or Silver , in any form , other than ornaments.”

Annexure III

1. Video Cassette Recorder or Video Cassette Player or Video Television Receiver or Video Cassette Disk Player.

2. Washing Machine.
3. Electrical or Liquefied Petroleum Gas Cooking Range
4. Personal Computer(Desktop Computer)
5. Laptop Computer(Notebook Computer).
6. Domestic Refrigerators of capacity up to 300 litres or its equivalent."

[F. No. 520/01/2004-Cus. VI]

D. S. GARBYAL, Under Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India vide notification No. 30/98-Customs (N.T), dated the 2nd June, 1998 [G.S.R. 296 (E), dated the 2nd June, 1998] and were last amended vide notification No. 11/2002-Customs(N.T), dated the 1st March, 2002 [G.S.R 125 (E), dated the 1st March, 2002].

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2004

सं. 1/2004-अन्तर्देशीय वायु यात्रा कर

सा.का.नि. 31(अ).— केन्द्रीय सरकार वित्त अधिनियम 1989 (1989 का 13) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समाचीन है, सभी यात्री जो अन्तर्देशीय यात्रा पर जाने वाले हैं, को उक्त अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) के आधीन उद्ग्रहणीय अन्तर्देशीय वायु यात्रा कर से पूर्णतः छूट देती है

2. यह अधिसूचना 9 जनवरी, 2004 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/40/2001-टीआरयू(पी.टी.)]

जी. एस. कार्की, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2004

No. 1/2004-Inland Air Travel Tax

G.S.R. 31(E).— In exercise of the powers conferred by section 44 of the Finance Act, 1989 (13 of 1989), the Central Government, being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby exempts all passengers embarking on inland journey from the payment of inland air travel tax leviable under sub-section (1) of section 42 of the said Act.

2. This notification shall come into force on the 9th day of January, 2004.

[F. No. 354/40/2001-TRU(Pt.)]

G.S. KARKI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2004

सं. 1/2004-विदेश यात्रा कर

सा.का.नि. 32(अ).— केन्द्रीय सरकार वित्त अधिनियम 1979 (1979 का 21) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समाचीन है, सभी यात्री जो अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर जाने वाले हैं, को उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के आधीन उद्ग्रहणीय विदेश यात्रा कर से पूर्णतः छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 9 जनवरी, 2004 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/40/2001-टीआरयू (पीटी)]

जी. एस. कार्की, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2004

No. 1/2004-FOREIGN TRAVEL TAX

G.S.R. 32(E).— In exercise of the powers conferred by section 36 of the Finance Act, 1979 (21 of 1979), the Central Government, being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby exempts all passengers embarking on international journey from the payment of foreign travel tax leviable under sub-section (1) of section 35 of the said Act.

2. This notification shall come into force on the 9th day of January, 2004.

[F. No. 354/40/2001-TRU(Pt.)]

G.S. KARKI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2004

सं. 2/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 33(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 6/2002 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 में, जो भारत के राजपत्र में सा०का०नि० सं० 127 (अ) तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(अ) सारणी में,-

(i) क्रम सं० 261 के समक्ष स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “ 8 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) क्रम सं० 262 के समक्ष स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

“ निम्नलिखित माल अर्थात्:-

- (क) अभिलिखित श्रव्य काम्पेकड डिस्क (सी डी)
 (ख) अभिलिखित दृष्टव्य काम्पेकड डिस्क (वी सी डी)
 (ग) अभिलिखित डिजीटल दृष्टव्य डिस्क (डी वी डी) ” ;

(iii) क्रम सं० 272 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“272.	9402.10	सभी माल	8 प्रतिशत		—”;

(iv) क्रम सं० 276 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“277	2710.92	एबीएशन टरबाइन फ्यूल	8 प्रतिशत	-	-
278	63	कीटनाशक से गृभित मच्छरदानियां	कुछ नहीं	-	-
279	90 या अन्य कोइ अध्याय	निम्नलिखित मालों के भाग, अर्थात्:- (i) क्रचें; (ii) व्हील चेरर; (iii) वार्किंग फ्रेम; (iv) तिपहियां साइकिल; (v) ब्रेलर; (vi) कृत्रिम अंग	कुछ नहीं	-	—”।

2. यह अधिसूचना 9 जनवरी, 2004 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 349/1/2004-टीआरयू]

जी. एस. कार्की, अवर सचिव

पादटिप्पण :— अधिसूचना सं. 6/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 भारत के राजपत्र में सा०का०नि० सं० 127(अ) तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका अंतिम बार अधिसूचना सं. 74/2003 सीमाशुल्क तारीख 20 अक्टूबर, 2003 [सा.का.नि. सं. 823 (अ) तारीख 20 अक्टूबर, 2003] द्वारा संशोधन किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2004

No. 2/2004-CENTRAL EXCISE

G.S.R. 33(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 6/2002-Central Excise, dated the 1st March, 2002, namely:-

In the said notification, in the Table,-

- (i) against S.No. 261, for the entry in column (4), the entry "8%" shall be substituted;
- (ii) against S.No. 262, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:-
 "The following goods, namely:-
 (A) Recorded audio compact discs (CDs);
 (B) Recorded video compact discs (VCDs);
 (C) Recorded digital video discs (DVDs)";

- (iii) for S. No. 272 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"272.	9402.10	All goods	8%	-	-";

- (iv) after S. No. 276 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"277.	2710.92	Aviation turbine fuel	8%	-	-
278.	63	Mosquito nets impregnated with insecticide	Nil	-	-
279.	90 or any other Chapter	Parts of the following goods, namely:- (i) Crutches (ii) Wheel chairs (iii) Walking frames (iv) Tricycles (v) Brailers (vi) Artificial limbs	Nil	-	-";

2. This notification shall come into force on the 9th day of January, 2004.

[F. No. 349/1/2004-TRU]

G.S. KARKI, Under Secy.

Note: The principal notification No.6/2002-Central Excise dated the 1st March, 2002 was published in the 'Gazette of India, Extraordinary vide G.S.R. 127(E) dated the 1st March, 2002 and was last amended by notification No. 74/2003-Central Excise dated the 20th October, 2003 [G.S.R. 823(E) dated the 20th October, 2003].

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2004

सं. 3/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 34(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 (1986 का 5) के अंतर्गत आने वाले -

(1) जल संभरण संयंत्र को स्थापित करने के लिए अपेक्षित सभी प्रकार की मशीन, जिनमें यंत्र, उपस्कर और साधित्र, पूरक यंत्र और उनके पुर्जे/भाग सम्मिलित हैं;

(2) पानी को स्रोत से संयंत्र तक लाने के लिए तथा वहां से संचायक सुविधा तक ले जाने के लिए अपेक्षित पाइप,

को उन पर उक्त पहली अनुसूची के अंतर्गत उद्ग्रहणीय संपूर्ण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

से इस शर्त पर मुक्त करती है कि परियोजना के स्थानीय जिले का कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/ डिप्टी कमीशनर द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र, की उक्त माल उपरोक्त आशयित प्रयोग के लिए निकासी किया गया है, उस अधिकार क्षेत्र के उप केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त को प्रस्तुत किया जाये।

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए जल संभरण संयंत्र में जल के डीसेलेशन, डीमीनराइजेशन, या शुद्धिकरण या जल पर इसी तरह के अन्य प्रक्रिया या प्रक्रियाओं, जिससे पानी को कृषि या औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त बनाया जा सके, के लिए संयंत्र सम्मिलित हैं।

2. यह अधिसूचना 9 जनवरी, 2004 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/159/2002-टीआरयू]

जी. एस. कार्की, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2004

No. 3/2004-CENTRAL EXCISE

G.S.R. 34(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts -

- (i) All items of machinery, including instruments, apparatus and appliances, auxiliary equipment and their components/ parts required for setting up of water supply plants; and
- (ii) Pipes needed for delivery of water from its source to the plant and from there to the storage facility,

falling under the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), from whole of the duty of excise leviable thereon under the said First Schedule, subject to the condition that a certificate issued by the Collector/ Deputy Commissioner/ District Magistrate of the District in which the project is located, is produced to the Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, having jurisdiction, to the effect that such goods are cleared for the intended use specified above.

Explanation. - For the purpose of this notification, water supply plant includes a plant for desalination, demineralization or purification of water or for carrying out any similar process or processes intended to make the water fit for agricultural or industrial use.

2. This notification shall come into force on the 9th day of January, 2004.

[F. No. 354/159/2002-TRU]

G.S. KARKI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2004

सं. 1/2004-के.उ.शु. (गै.टै.)

सा.का.नि. 35(अ).— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944(1944 का 1) की धारा 37 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 को और आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क(संशोधन) नियमावली, 2004 कहा जाये।
(2) ये 9 जनवरी 2004 से प्रवृत्त होंगे।
2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 में नियम 16क के बाद निम्नलिखित नियम जोड़े जायेंगे अर्थात् :-

"16 ख. कतिपय प्रयोजनों के लिए अर्द्ध तैयार माल को हटाने के लिए विशेष प्रक्रिया- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, विशेष आदेश के द्वारा और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अध्यधीन विनिर्माता को उत्पाद शुल्केय माल जो अर्द्ध तैयार माल की प्रकृति का है, को कतिपय विनिर्माण प्रक्रिया करने के लिए किन्हीं अन्य परिसरों को और ऐसे माल को अपने कारखाने में शुल्क अदायगी बिना वापस लाने के लिए अथवा किन्हीं अन्य पंजीकृत परिसरों में ले जाने के लिए अनुमति देते हैं और इस माल को ऐसे अन्य पंजीकृत परिसरों से निर्यात के लिए शुल्क भुगतान पर अथवा शुल्क के भुगतान के बिना हटाने की अनुमति देते हैं।

16 ग. परीक्षण करने के लिए उत्पाद शुल्केय माल को हटाने के लिए विशेष प्रक्रिया,- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, विशेष आदेश के द्वारा और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अध्यधीन विनिर्माता को परीक्षण करने के लिए अपने कारखाने में विनिर्मित उत्पाद शुल्क माल को किसी अन्य परिसर में हटाने और ऐसे माल को शुल्क की अदायगी बिना अपने कारखाने में अथवा किन्हीं अन्य पंजीकृत परिसरों में वापस लाने की अनुमति देते हैं और इस माल को ऐसे अन्य पंजीकृत परिसरों से निर्यात के लिए शुल्क भुगतान पर अथवा शुल्क भुगतान के बिना हटाने की अनुमति देते हैं।

बशर्ते कि यह नियम " प्रोटोटाईप्स " के रूप में ज्ञात माल जो परीक्षण अथवा विकास जाँच के लिए भेजा गया है, के लिए लागू नहीं होगा।"

[फा. सं. 201/102/2003-के.उ.शु.-6]

नीरव कुमार मल्लिक, अवर सचिव

पाद टिप्पणी :— मूल नियम अधिसूचना सं. 4/2002 के.उ.शु.(गै.टै.) दिनांक 1 मार्च 2002 (सा.का.नि.143(अ), दिनांक 1 मार्च, 2002) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 69/2003 के.उ.शु.(गै.टै.) दिनांक 15 सितम्बर, 2003 (सा.का.नि.742(अ), दिनांक 15 सितम्बर, 2003) के तहत अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2004

No. 1/2004-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 35(E).— In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 2002, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (Amendment) Rules, 2004.
(2) They shall come into force on the 9th day of January, 2004.
2. In the Central Excise Rules, 2002, after rule 16A, the following rules shall be inserted namely:—

‘16B. Special procedure for removal of semi-finished goods for certain purposes.— The Commissioner of Central Excise may by special order and subject to conditions as may be specified by the Commissioner of Central Excise, permit a manufacturer to remove excisable goods which are in the nature of semi-finished goods, for carrying out certain manufacturing processes, to some other premises and to bring back such goods to his factory, without payment of duty, or to some other registered premises and allow these goods to be removed on payment of duty or without payment of duty for export from such other registered premises.

16C. Special procedure for removal of excisable goods for carrying out tests.— The Commissioner of Central Excise may, by special order and subject to such conditions as may be specified by the Commissioner of Central Excise, permit a manufacturer to remove excisable goods manufactured in his factory for carrying out tests to some other premises and to bring back such goods to his factory, without payment of duty, or to some other registered premises and allow these goods to be removed on payment of duty, or without payment of duty for export from such other registered premises:

Provided that this rule shall not apply to the goods known as “prototypes” which are sent out for trial or development test.”

[F. No. 201/102/2003-CX.6]

NEERAV KUMAR MALLICK, Under Secy.

Footnote: The principal rules were published in the Gazette of India vide notification no.4/2002-CE(N.T.) dated 1st March, 2002 [GSR 143(E) dated the 1st March, 2002] and were last amended vide notification no.69/2003-CE(N.T.) the 15th September, 2003 [GSR 742(E) dated 15th September, 2003].